



TELEGRAM CHANNEL: <https://t.me/patrioticIAS>
YOUTUBE CHANNEL: <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>
CONTACT: 9971932488



PATRIOTIC IAS

DAILY CURRENT AFFAIRS

THE HINDU NEWSPAPER

01 MAY 2026

YouTube link: <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

Telegram Channel: <https://t.me/patrioticIAS>

PCS Special:	22 May
22M	CJP's X handle withheld; founder starts new account CJP का X हैंडल रोका गया; संस्थापक ने नया अकाउंट शुरू किया
22M	East Bengal's 22-year wait for top-division title ends ईस्ट बंगाल का शीर्ष डिवीजन खिताब के लिए 22 वर्षों का इंतजार समाप्त



CJP's X handle withheld; founder starts new account

PCS

The Hindu Bureau
CHENNAI

The X account of Cockroach Janta Party, the satirical political outfit that has taken social media by storm, has been withheld in India in response to a legal demand, according to founder Abhijeet Dipke.

"Cockroach Janta Party's account was started on 16th May. Within 4 days the account got banned because it got more than 200K following," the founder posted on X on Thursday. Mr. Dipke also claimed that attempts were made to hack the CJP's Instagram handle.

Mr. Dipke later announced that he had started a new account named "Cockroach Is Back" on X. He informed the agencies that the team would pursue the matter "legally". A little over an hour after it was started, the "Cockroach Is Back" X handle had 16,800 followers.

The CJP is a satirical political movement founded on May 16 by Mr. Dipke, a former political strategist for the Aam Aadmi Party. The platform was started in response to Chief Justice of India Surya Kant's comment describing young, unemployed Indians as "cockroaches". The CJI had later said that the me-



A poster announcing the CJP's new X account after the original was taken down. X/@COCKROACHISBACK

dia had "misquoted" him.

The movement became an Internet sensation, garnering over 14.5 million followers on Instagram, surpassing the BJP's 8.8 million follower count. Several other accounts using the 'cockroach' nomenclature remain active on X, including 'The Cockroach Youth', 'Cockroach News', 'IAmCockroach', 'Cockroach Party of India' and 'Cockroach Janta Party (Gen Z)'.

Politicians, including Trinamool Congress leaders Mahua Moitra and Kirti Azad, engaged with or expressed interest in the movement, alongside activists such as Prashant Bhushan and Anjali Bharadwaj.

(With PTI inputs)

22M. CJP's X handle withheld; founder starts new account

CJP का X हैंडल रोका गया; संस्थापक ने नया अकाउंट शुरू किया

- The X account of **Cockroach Janta Party**, the satirical political outfit that has taken social media by storm, has been withheld in India in response to a legal demand, according to founder **Abhijeet Dipke**.

संस्थापक **अभिजीत दिपके** के अनुसार, सोशल मीडिया पर तेजी से लोकप्रिय हुए व्यंग्यात्मक राजनीतिक संगठन **Cockroach Janta Party** का X अकाउंट भारत में एक कानूनी मांग के जवाब में रोका गया है।

- "**Cockroach Janta Party's** account was started on 16th May. Within 4 days the account got banned because it got more than **200K following**," the founder posted on X on Thursday.

संस्थापक ने गुरुवार को X पर पोस्ट किया, "**Cockroach Janta Party** का अकाउंट 16 मई को शुरू किया गया था। 4 दिनों के भीतर अकाउंट प्रतिबंधित हो गया क्योंकि इसके **200K से अधिक फॉलोअर्स** हो गए थे।"

- Mr. Dipke also claimed that attempts were made to hack the **CJP's Instagram** handle.

श्री दिपके ने यह भी दावा किया कि **CJP के इंस्टाग्राम हैंडल** को हैक करने की कोशिश की गई।

- Mr. Dipke later announced that he had started a new account named "**Cockroach Is Back**" on X.

बाद में श्री दिपके ने घोषणा की कि उन्होंने X पर "**Cockroach Is Back**" नाम से नया अकाउंट शुरू किया है।

- He informed the agencies that the team would pursue the matter "legally".

उन्होंने एजेंसियों को सूचित किया कि टीम इस मामले को "कानूनी रूप से" आगे बढ़ाएगी।

- A little over an hour after it was started, the "**Cockroach Is Back**" X handle had **16,800 followers**.

शुरू होने के एक घंटे से कुछ अधिक समय बाद ही "**Cockroach Is Back**" X हैंडल के **16,800 फॉलोअर्स** हो गए थे।

- The **CJP** is a satirical political movement founded on **May 16** by Mr. Dipke, a former political strategist for the **Aam Aadmi Party**.

CJP एक व्यंग्यात्मक राजनीतिक आंदोलन है, जिसकी स्थापना **16 मई** को **आम आदमी पार्टी** के पूर्व राजनीतिक रणनीतिकार श्री दिपके द्वारा की गई थी।

- The platform was started in response to **Chief Justice of India Surya Kant's** comment describing young, unemployed Indians as "cockroaches".

यह मंच **भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत** की उस टिप्पणी के जवाब में शुरू किया गया था, जिसमें उन्होंने युवा बेरोजगार भारतीयों को "cockroaches" कहा था।

- The **CJI** had later said that the media had "misquoted" him.

बाद में **CJI** ने कहा था कि मीडिया ने उन्हें "गलत उद्धृत" किया था।



- The movement became an Internet sensation, garnering over **14.5 million followers on Instagram**, surpassing the **BJP's 8.8 million** follower count.
यह आंदोलन इंटरनेट पर सनसनी बन गया और Instagram पर इसके **14.5 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स** हो गए, जो **BJP** के **8.8 मिलियन** फॉलोअर्स से अधिक हैं।
- Several other accounts using the 'cockroach' nomenclature remain active on X, including 'The Cockroach Youth', 'Cockroach News', 'IAmCockroach', 'Cockroach Party of India' and 'Cockroach Janta Party (Gen Z)'.
'cockroach' नाम का उपयोग करने वाले कई अन्य अकाउंट भी X पर सक्रिय हैं, जिनमें 'The Cockroach Youth', 'Cockroach News', 'IAmCockroach', 'Cockroach Party of India' और 'Cockroach Janta Party (Gen Z)' शामिल हैं।
- Politicians, including Trinamool Congress leaders **Mahua Moitra** and **Kirti Azad**, engaged with or expressed interest in the movement, alongside activists such as **Prashant Bhushan** and **Anjali Bharadwaj**.
तृणमूल कांग्रेस नेताओं **महुआ मोइत्रा** और **कीर्ति आजाद** सहित कई राजनेताओं ने इस आंदोलन में रुचि दिखाई या इससे जुड़ाव व्यक्त किया, वहीं **प्रशांत भूषण** और **अंजलि भारद्वाज** जैसे कार्यकर्ता भी इससे जुड़े।

East Bengal's 22-year wait for top-division title ends

ISL
PCS
Anwar Ali Dasgupta
KOLKATA

East Bengal FC roared back from a goal down to defeat Inter Kashi FC 2-1 and emerged the new Indian Super League champion on Thursday. The triumph ended the Red and Gold Brigade's 22-year wait for the country's premier title.

A remarkable counterattack saw Inter Kashi take the lead in the 15th minute. Alfred Planas latched on to a deep cross from David Munoz and produced a spectacular volley to silence the East Bengal fans who had thronged the Kishore Bharati Stadium in large numbers to cheer the team.

The hosts responded strongly after the break, showing more urgency as they looked for the equaliser.

The efforts were rewarded in the 50th minute when Youssef Ezzejari swooped in on a through ball from Anwar Ali and calmly slotted the ball home.

East Bengal nudged ahead in the 73rd minute when Mohammed Rashid timed his run to perfection, reaching a cross from Bipin Singh and guiding



Best on show: Figueira was adjudged 'player-of-the-league' while Ezzejari emerged the top scorer. X@INDSUPERLEAGUE

the ball home with an outstretched leg.

East Bengal held on to the lead, sparking celebrations in the dugout and the stands.

Bagan finishes second

In the other match held simultaneously at the Salt Lake Stadium, defending champion Mohun Bagan Super Giant registered a comeback 2-1 victory over Sporting Club Delhi.

East Bengal and Bagan finished with 26 points in 13 matches. As their Kolkata derby had ended in a 1-1 stalemate, goal difference proved to be the tie-breaker (19 to 14).

In New Delhi, Mumbai City FC defeated Punjab FC 2-0 through goals by Hmingthanmawia 'Valpuia' Ralte and Vikram Paratap Singh to ensure itself a third-placed finish.

Punjab ended fifth in the standings with 22 points from 13 games.

The results:

At Kolkata: Inter Kashi 1 (Planas 15) lost to East Bengal FC 2 (Ezzejari 50, Rashid 73).
Mohun Bagan SG 2 (Manvir 90, Maclaren 90+9) bt Sporting Club Delhi 1 (Fernandes 63).

At New Delhi: Punjab FC 0 lost to Mumbai City FC 2 (Valpuia 80, Vikram Singh 90+11).

At Jamshedpur: Jamshedpur FC 0 drew with Odisha FC 0.

22M. East Bengal's 22-year wait for top-division title ends

ईस्ट बंगाल का शीर्ष डिवीजन खिताब के लिए 22 वर्षों का इंतजार समाप्त

- **East Bengal FC** roared back from a goal down to defeat **Inter Kashi FC** 2-1 and emerged the new **Indian Super League** champion on Thursday.

ईस्ट बंगाल एफसी ने एक गोल से पिछड़ने के बाद शानदार वापसी करते हुए इंटर काशी एफसी को 2-1 से हराया और गुरुवार को नया इंडियन सुपर लीग चैंपियन बना।

- The triumph ended the **Red and Gold Brigade's** 22-year wait for the country's premier title.

इस जीत के साथ **रेड एंड गोल्ड ब्रिगेड** का देश के सर्वोच्च खिताब के लिए 22 वर्षों का इंतजार समाप्त हो गया।

- A remarkable counterattack saw **Inter Kashi** take the lead in the 15th minute.

एक शानदार जवाबी आक्रमण के जरिए इंटर काशी ने 15वें मिनट में बढ़त हासिल कर ली।

- **Alfred Planas** latched on to a deep cross from **David Munoz** and produced a spectacular volley to silence the East Bengal fans who had thronged the **Kishore Bharati Stadium** in large numbers to cheer the team.

अल्फ्रेड प्लानास ने **डेविड मुनोज़** के गहरे क्रॉस पर शानदार वाली लगाई और टीम का समर्थन करने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे **किशोर भारती स्टेडियम** में मौजूद ईस्ट बंगाल



समर्थकों को शांत कर दिया।

- The hosts responded strongly after the break, showing more urgency as they looked for the equaliser.
मेजबान टीम ने अंतराल के बाद जोरदार जवाब दिया और बराबरी के गोल की तलाश में अधिक आक्रामकता दिखाई।
- The efforts were rewarded in the 50th minute when **Youssef Ezzejjari** swooped in on a through ball from **Anwar Ali** and calmly slotted the ball home.
इन प्रयासों का परिणाम 50वें मिनट में मिला जब **यूसुफ एज़ेज्जारी** ने **अनवर अली** के थ्रू बॉल पर तेजी से पहुंचकर शांतिपूर्वक गेंद को गोल में पहुंचा दिया।
- East Bengal nudged ahead in the 73rd minute when **Mohammed Rashid** timed his run to perfection, reaching a cross from **Bipin Singh** and guiding the ball home with an outstretched leg.
73वें मिनट में **मोहम्मद राशिद** ने सही समय पर दौड़ लगाते हुए **बिपिन सिंह** के क्रॉस तक पहुंचकर फैले हुए पैर से गेंद को गोल में पहुंचाया और ईस्ट बंगाल को बढ़त दिलाई।
- East Bengal held on to the lead, sparking celebrations in the dugout and the stands.
ईस्ट बंगाल ने अपनी बढ़त बरकरार रखी, जिसके बाद डगआउट और दर्शक दीर्घा में जश्न शुरू हो गया।

Bagan finishes second

बागान दूसरे स्थान पर रहा

- In the other match held simultaneously at the **Salt Lake Stadium**, defending champion **Mohun Bagan Super Giant** registered a comeback 2-1 victory over **Sporting Club Delhi**.
सॉल्ट लेक स्टेडियम में एक साथ खेले गए दूसरे मुकाबले में मौजूदा चैंपियन **मोहन बागान सुपर जायंट** ने वापसी करते हुए **स्पोर्टिंग क्लब दिल्ली** को 2-1 से हराया।
- East Bengal and Bagan finished with 26 points in 13 matches.
ईस्ट बंगाल और बागान दोनों ने 13 मैचों में 26 अंक हासिल किए।
- As their **Kolkata derby** had ended in a 1-1 stalemate, goal difference proved to be the tie-breaker (19 to 14).
चूंकि उनका **कोलकाता डर्बी** मुकाबला 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ था, इसलिए गोल अंतर (19 बनाम 14) टाई-ब्रेकर साबित हुआ।
- In **New Delhi**, **Mumbai City FC** defeated **Punjab FC** 2-0 through goals by **Hmingthanmawia 'Valpuia' Ralte** and **Vikram Partap Singh** to ensured itself a third-placed finish.
नई दिल्ली में **मुंबई सिटी एफसी** ने **पंजाब एफसी** को 2-0 से हराकर तीसरा स्थान सुनिश्चित किया, जिसमें गोल **हिमंगथनमाविया 'वालपुइया' राल्टे** और **विक्रम प्रताप सिंह** ने किए।
- Punjab ended fifth in the standings with 22 points from 13 games.
पंजाब 13 मैचों में 22 अंकों के साथ अंकतालिका में पांचवें स्थान पर रहा।

GS Paper 1: Society		22 May 2026
TOPICS COVERED		
22M	Caste away जाति से परे	



GS I: Society

Caste away

People must have the option to state they are casteless in the Census

The Supreme Court was not wrong to dismiss a petition that sought to stall the caste census, which is part of the ongoing Census 2027. The Chief Justice of India remarked, in support of the caste count, that “any government of the day must know how many people are backward and how many need welfare”. In April 2025, the Narendra Modi government had made a turnaround to announce caste enumeration alongside the fresh census, the first such exercise since 1931. Mr. Modi had earlier derided the idea as a sign of “urban Naxal” thinking, and the RSS had warned that such surveys were attempts to fracture Hindu society. The Congress, too, had made a dramatic turnaround in its historical position to demand a caste census. Early governments of independent India decided not to enumerate caste with the census. The dominant thinking then was that counting caste communities would only reinforce the institution of caste that the state wanted to dismantle. On the one hand, state policies sought to create a casteless society, while on the other, they also accounted for caste identities for positive discrimination in legislative representation and employment. This dual approach to caste that was baked into the nation’s founding principles has created a paradox that continues to this day. The clamour for a caste census is the latest manifestation of it.

The Census itself has been long overdue. The decennial population survey was originally due in 2021 but was delayed by the COVID-19 pandemic and logistical hurdles. The caste enumeration will take place in the second phase and will involve asking every individual their caste, rather than merely recording whether they belong to a Scheduled Caste or Scheduled Tribe, as in previous Censuses. The delay in the Census has a bearing on planning of all sorts. In India, a considerable portion of state policy is directly or indirectly linked to the caste profile of the target group. The one attempt at a post-Independence national caste count came in 2011. The open-ended caste identification process of the Socio-Economic and Caste Census produced over 46 lakh distinct caste names and 8 crore data errors, rendering the dataset unusable. Most of its findings remain unpublished. The Modi government is still grappling with the challenge of finding the appropriate methodology for an accurate enumeration of caste communities. A caste census detracts from the effort to eradicate caste as it ossifies identities, but is helpful if viewed alongside other socioeconomic indices to better target welfare measures and ensure representation. The annihilation of caste must remain a goal, and people must be allowed to classify themselves as casteless if they so wish.

22M. Caste away

जाति से परे

• People must have the option to state they are **casteless** in the **Census**.

लोगों के पास **जनगणना** में स्वयं को **जातिविहीन** घोषित करने का विकल्प होना चाहिए।

• The **Supreme Court** was not wrong to dismiss a petition that sought to stall the **caste census**, which is part of the ongoing **Census 2027**.

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उस याचिका को खारिज करना गलत नहीं था, जिसमें चल रही **जनगणना 2027** के अंतर्गत होने वाली **जाति जनगणना** को रोकने की मांग की गई थी।

• The **Chief Justice of India** remarked, in support of the caste count, that “any government of the day must know how many people are backward and how many need welfare”.

भारत के मुख्य न्यायाधीश ने जातिगत गणना के समर्थन में कहा कि “किसी भी समय की सरकार को यह जानना आवश्यक है कि कितने लोग पिछड़े हैं और कितनों को कल्याणकारी सहायता की आवश्यकता है।”

• In **April 2025**, the **Narendra Modi government** had made a turnaround to announce caste enumeration alongside the fresh census, the first such exercise since **1931**.

अप्रैल 2025 में **नरेंद्र मोदी सरकार** ने अपने रुख में परिवर्तन करते हुए नई **जनगणना** के साथ **जातिगत गणना** की घोषणा की, जो **1931** के बाद पहली ऐसी प्रक्रिया होगी।

• **Mr. Modi** had earlier derided the idea as a sign of “urban Naxal” thinking, and the **RSS** had warned that such surveys were attempts to fracture Hindu society.

श्री मोदी ने पहले इस विचार को “शहरी नक्सल” सोच का प्रतीक बताया था, और **आरएसएस** ने चेतावनी दी थी कि ऐसे सर्वेक्षण हिंदू समाज को विभाजित करने के प्रयास हैं।

• The **Congress**, too, had made a dramatic turnaround in its historical position to demand a caste census.

कांग्रेस ने भी अपने ऐतिहासिक रुख में बड़ा परिवर्तन करते हुए **जाति जनगणना** की मांग की।

• Early governments of independent India decided not to enumerate caste with the census.

स्वतंत्र भारत की प्रारंभिक सरकारों ने **जनगणना** के साथ **जातियों** की गणना न करने का निर्णय लिया था।

• The **dominant thinking** then was that counting caste communities would only reinforce the institution of caste that the state wanted to dismantle.

उस समय प्रमुख सोच यह थी कि **जातीय समुदायों** की गणना केवल उस जाति व्यवस्था को और मजबूत करेगी जिसे राज्य समाप्त करना चाहता था।

• **On the one hand**, state policies sought to create a casteless society, while on the other, they also accounted for caste identities for positive discrimination in legislative representation and employment.

एक ओर राज्य की नीतियाँ **जातिविहीन समाज** बनाने का प्रयास कर रही थीं, वहीं दूसरी ओर **विधायी प्रतिनिधित्व** और **रोजगार** में सकारात्मक भेदभाव के लिए **जातीय पहचान** को भी मान्यता दी जा रही थी।

• This dual approach to caste that was baked into the nation’s founding principles has created a paradox that continues to this day.



राष्ट्र की मूलभूत नीतियों में निहित जाति के प्रति यह द्वैध दृष्टिकोण एक ऐसे विरोधाभास को जन्म देता है जो आज तक जारी है।

- The clamour for a caste census is the latest manifestation of it. जाति जनगणना की मांग उसी विरोधाभास की नवीनतम अभिव्यक्ति है।

- The **Census** itself has been long overdue.

जनगणना स्वयं काफी समय से लंबित रही है।

- The decennial population survey was originally due in **2021** but was delayed by the **COVID-19 pandemic** and logistical hurdles.

दशकीय जनसंख्या सर्वेक्षण मूलतः 2021 में होना था, लेकिन कोविड-19 महामारी और प्रशासनिक कठिनाइयों के कारण इसमें देरी हुई।

- The **caste enumeration will take place in the second phase and will involve asking every individual their caste, rather than merely recording whether they belong to a **Scheduled Caste or Scheduled Tribe**, as in previous Censuses.**

जातिगत गणना दूसरे चरण में की जाएगी और इसमें प्रत्येक व्यक्ति से उसकी जाति पूछी जाएगी, न कि केवल यह दर्ज किया जाएगा कि वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित है, जैसा कि पूर्व जनगणनाओं में किया जाता था।

- The delay in the Census has a bearing on planning of all sorts.

जनगणना में हुई देरी का विभिन्न प्रकार की योजनाओं पर प्रभाव पड़ता है।

- In India, a considerable portion of state policy is directly or indirectly linked to the caste profile of the target group.

भारत में राज्य की नीतियों का एक बड़ा हिस्सा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लक्षित समूह की जातीय संरचना से जुड़ा हुआ है।

- The one attempt at a post-Independence national caste count came in **2011**.

स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय स्तर पर जातिगत गणना का एकमात्र प्रयास 2011 में किया गया था।

- The **open-ended caste identification process of the Socio-Economic and Caste Census produced over 46 lakh distinct caste names and 8 crore data errors, rendering the dataset unusable.**

सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना की खुली जाति पहचान प्रक्रिया में 46 लाख से अधिक अलग-अलग जाति नाम और 8 करोड़ डेटा त्रुटियाँ सामने आईं, जिससे वह आँकड़ा अनुपयोगी हो गया।

- Most of its findings remain unpublished.

इसके अधिकांश निष्कर्ष अब तक प्रकाशित नहीं किए गए हैं।

- The **Modi government** is still grappling with the **challenge of finding the appropriate methodology for an accurate enumeration of caste communities.**

मोदी सरकार अभी भी जातीय समुदायों की सटीक गणना के लिए उपयुक्त कार्यप्रणाली खोजने की चुनौती से जूझ रही है।

- **A caste census detracts from the effort to eradicate caste as it ossifies identities, but is helpful if viewed alongside other socioeconomic indices to better target welfare measures and ensure representation.**

जाति जनगणना जाति उन्मूलन के प्रयासों को कमजोर करती है क्योंकि यह पहचान को स्थायी बनाती है, लेकिन यदि इसे अन्य सामाजिक-आर्थिक सूचकों के साथ देखा जाए तो यह कल्याणकारी योजनाओं को बेहतर ढंग से लक्षित करने और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने में सहायक हो सकती है।

- The annihilation of caste must remain a goal, and people must be allowed to classify themselves as casteless if they so wish.

जाति का उन्मूलन एक लक्ष्य बना रहना चाहिए, और लोगों को यदि वे चाहें तो स्वयं को जातिविहीन के रूप में वर्गीकृत करने की अनुमति मिलनी चाहिए।



GS Paper II: Polity		22 May 2026
TOPICS COVERED		
22M	Ladakh seeks belonging through representation लद्दाख प्रतिनिधित्व के माध्यम से अपनी पहचान और सहभागिता की तलाश में	
22M	Bat for the better बेहतर व्यवस्था के लिए बल्ला	

Ladakh seeks belonging through representation

GS II: Polity

MOB

It is both sad and ironic that the Union Ministry of Home Affairs, Government of India argues that Ladakh needs more districts rather than a legislature or stronger constitutional safeguards under the Sixth Schedule. It contends that Ladakh's sparse population, strategic sensitivity and financial dependence on the Centre make a legislature unnecessary, and instead offers administrative decentralisation through additional districts as a practical alternative.

This argument is fundamentally flawed and reflects an impoverished understanding of democracy. Not long ago, the British Empire claimed that Indians lacked the maturity and institutional capacity for self-rule – that Indians were too poor, illiterate and divided to govern themselves. It was against such paternalism that Sri Aurobindo championed the idea of Purna Swaraj, or absolute self-governance, as a matter of dignity and national selfhood. History proved the British wrong.

Yet, close to 80 years after Independence, the argument that Ladakh should be content with districts instead of a legislature echoes the same colonial logic in the language of nationalism. Must Ladakhis still prove they are sufficiently populous, profitable and capable enough to deserve political representation? Does being geographically vast, sparsely populated and strategically sensitive disqualify a region from having a legislature?

The recent announcement of five additional districts in Ladakh – Nubra, Changthang, Sham, Zaskar and Drass – has been celebrated as a major governance reform. Certainly, administrative accessibility matters in a region spread across nearly 59,000 square kilometres of high-altitude terrain. Villages separated by mountain passes and harsh winters do require local administrative presence.

But handing out districts is not democracy. Districts cannot legislate on land protection, demographic safeguards, ecological preservation, employment priorities, cultural autonomy, renewable energy negotiations, education policy or the long-term developmental vision of the region. Districts are instruments of administration. Legislatures are instruments of representation. A district magistrate implements policy. A legislature shapes the future of a people. A district reports upward to the bureaucracy. A legislature answers downward to citizens. No amount of administrative decentralisation and convenience can substitute for political agency.

Expendable electoral promises

The most troubling aspect of the present discourse is that the Government of India itself repeatedly promised constitutional safeguards to Ladakh. After the abrogation of Article 370 and the creation of the Union Territory in 2019,



Gitanjali J. Angmo

Founder of the Himalayan Institute of Alternatives, Ladakh, and an education reformer and public intellectual working to reimagine education, democracy, ecology and Himalayan futures through grassroots leadership and innovation

assurances regarding Sixth Schedule protections were publicly articulated by leaders of the Bharatiya Janata Party and reflected in their election manifestoes for the MP and Hill Council elections in 2019 and 2020, respectively.

Yet, once the elections were over, and the party won based on these very manifestos, it went back on its commitments, raising ethical questions: Can promises made to frontier populations become expendable after elections?

The case of the northeast

What of the objections themselves? Take the first one – that Ladakh is too strategic a border to be trusted with self-government. Arunachal Pradesh shares one of India's most sensitive borders with China. It is geographically vast, sparsely populated, strategically critical and financially dependent on the Centre. Yet, when it was granted full statehood in 1987, its strategic location was not viewed as a security risk, but as a strategic necessity. India understood that border populations cannot be held merely through bureaucratic administration or military presence. The people who feel politically enfranchised and constitutionally respected defend a nation more fiercely than people who merely live inside its lines. If strategic sensitivity was an argument for empowerment in one Himalayan frontier, by what logic does it become an argument against it in another?

The same applies to much of the Northeast. When Nagaland was granted statehood in 1963, its population was barely around 3.5 lakh. Mizoram became a State in 1987 with a population of roughly five lakh. Sikkim entered the Indian Union as a state in 1975 with a population of barely two lakh. Arunachal Pradesh itself had roughly six lakh people at the time of statehood. None of these States was financially self-sufficient. Many remain substantially dependent on central transfers even today. India did not tell them that they were too small, or too poor, or too remote for a legislature. It understood that you do not integrate a frontier through subsidy and garrison alone. You integrate it through belonging.

Which brings us to the fiscal objection – the weakest of the three. Ladakh, we are told, cannot generate enough revenue to sustain itself. But since when has fiscal solvency become the price of admission to Indian democracy? India's federal structure is built on redistribution; the Finance Commission exists precisely because some States earn more than others and the Union shares it out. Even large States depend heavily on central devolution.

Uttar Pradesh, the most populous State, draws enormous sums from the Centre through tax devolution, central schemes and grants-in-aid. Bihar, Assam and several Northeastern States also rely heavily on central transfers (between 70%

and 90% of their expenditure) to bridge developmental gaps.

In many of these States, mountainous terrain, sparse populations and strategic constraints limit conventional revenue generation. Yet, no one would argue that Uttar Pradesh should surrender its legislature because it depends on central funds. The suggestion would be absurd. Democracy in India has never been a reward for profitability – and if it were, much of the country would fail the test.

Ladakh needs its own voice

And Ladakhis are worth hearing – especially when the same establishment that calls Ladakh economically negligible is planning some of India's largest energy infrastructure projects on its land. The renewable energy project in the Pang region of Changthang is expected to generate nearly 13 gigawatts of power, spread across acres of high-altitude pastureland. With investments of around ₹50,000 crore and a potential of ₹7,000 crore of annual income, this is hardly the arithmetic of an insignificant region. It is the arithmetic of a region that is central to India's energy future.

Ladakhis are increasingly watching decisions being made on solar parks, transmission corridors, mining, tourism expansion and land use. The real question, then, is who negotiates the terms of this transformation. Who decides land rights, grazing rights for Changpa herders, ecological limits, local jobs, royalties and inter-generational sustainability? A district officer cannot answer these questions. Nor was he ever meant to. That is the role of a legislature – made up of representatives accountable to the people whose lives are being shaped by these decisions.

This is what the argument ultimately comes down to. India's greatness was never administrative tidiness, but the constitutional imagination to hold staggering difference within one Union without flattening it. That same imagination produced the Sixth Schedule, recognising that fragile and distinct frontier regions need protections the plains do not. Uniformity is not equity. And Ladakh is not asking to belong to India less; it is asking to belong more fully – not as a territory administered from afar, but as a people shaping their own future. That distinction matters.

Sri Aurobindo wrote that freedom is the necessary atmosphere for a nation's soul to grow. India's spirit has often been strongest at its edges – in places that chose Bharat and defended it through hardship and sacrifice without asking what it cost. The strength of a republic is not measured by how tightly it controls its frontiers, but by how deeply even its farthest regions feel they belong. The voice rising from Ladakh today is not a demand for privilege, but a quiet appeal to be trusted with its own future.

22M. Ladakh seeks belonging through representation

लद्दाख प्रतिनिधित्व के माध्यम से अपनी पहचान और सहभागिता की तलाश में

- It is both sad and ironic that the **Union Ministry of Home Affairs, Government of India** argues that **Ladakh** needs more districts rather than a legislature or stronger constitutional safeguards under the **Sixth Schedule**.

यह दुखद और विडंबनापूर्ण दोनों हैं कि भारत सरकार का **केंद्रीय गृह मंत्रालय** यह तर्क देता है कि **लद्दाख** को एक विधानमंडल या **छठी अनुसूची** के अंतर्गत अधिक मजबूत संवैधानिक सुरक्षा के बजाय अधिक जिलों की आवश्यकता है।



- It contends that Ladakh's sparse population, strategic sensitivity and financial dependence on the Centre make a legislature unnecessary, and instead offers administrative decentralisation through additional districts as a practical alternative.
मंत्रालय का तर्क है कि लद्दाख की कम जनसंख्या, सामरिक संवेदनशीलता और केंद्र पर वित्तीय निर्भरता के कारण वहाँ विधानमंडल की आवश्यकता नहीं है, और इसके स्थान पर अतिरिक्त जिलों के माध्यम से प्रशासनिक विकेंद्रीकरण को व्यावहारिक विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया गया है।
- This argument is fundamentally flawed and reflects an impoverished understanding of democracy.
यह तर्क मूलतः त्रुटिपूर्ण है और लोकतंत्र की सीमित समझ को दर्शाता है।
- Not long ago, the **British Empire** claimed that Indians lacked the maturity and institutional capacity for self-rule — that Indians were too poor, illiterate and divided to govern themselves. बहुत समय पहले नहीं, **ब्रिटिश साम्राज्य** यह दावा करता था कि भारतीयों में स्वशासन के लिए आवश्यक परिपक्वता और संस्थागत क्षमता का अभाव है — कि भारतीय स्वयं शासन करने के लिए अत्यधिक गरीब, अशिक्षित और विभाजित हैं।
- It was against such paternalism that **Sri Aurobindo** championed the idea of **Purna Swaraj, or absolute self-governance, as a matter of dignity and national selfhood.**
ऐसी संरक्षणवादी सोच के विरुद्ध **श्री अरविंद** ने गरिमा और राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता के प्रश्न के रूप में **पूर्ण स्वराज** अर्थात् पूर्ण स्वशासन की अवधारणा का समर्थन किया था।
- History proved the British wrong.
इतिहास ने ब्रिटिशों को गलत सिद्ध कर दिया।
- Yet, close to **80 years after Independence**, the argument that Ladakh should be content with districts instead of a legislature echoes the same colonial logic in the language of nationalism. फिर भी, **स्वतंत्रता के लगभग 80 वर्ष बाद**, यह तर्क कि लद्दाख को विधानमंडल के स्थान पर केवल जिलों से संतुष्ट हो जाना चाहिए, राष्ट्रवाद की भाषा में उसी औपनिवेशिक सोच की पुनरावृत्ति करता है।
- Must Ladakhis still prove they are sufficiently populous, profitable and capable enough to deserve political representation?
क्या लद्दाख के लोगों को अब भी यह सिद्ध करना होगा कि वे पर्याप्त जनसंख्या वाले, लाभदायक और सक्षम हैं ताकि वे राजनीतिक प्रतिनिधित्व के योग्य माने जाएँ?
- **Does being geographically vast, sparsely populated and strategically sensitive disqualify a region from having a legislature?**
क्या भौगोलिक रूप से विशाल, कम जनसंख्या वाला और सामरिक रूप से संवेदनशील होना किसी क्षेत्र को विधानमंडल से वंचित करने का आधार बन सकता है?
- The **recent announcement of five additional districts in Ladakh — Nubra, Changthang, Sham, Zaskar and Drass — has been celebrated as a major governance reform.**
लद्दाख में हाल ही में घोषित **पाँच अतिरिक्त जिलों — नुब्रा, चांगथांग, शाम, जांस्कर और द्रास** — को एक बड़े प्रशासनिक सुधार के रूप में प्रस्तुत किया गया है।
- Certainly, administrative accessibility matters in **a region spread across nearly 59,000 square kilometres of high-altitude terrain.**
निश्चित रूप से, लगभग **59,000 वर्ग किलोमीटर** के उच्च हिमालयी भूभाग में फैले क्षेत्र में प्रशासनिक पहुँच का महत्व है।
- Villages separated by mountain passes and harsh winters do require local administrative presence.
पर्वतीय दर्राँ और कठोर सर्दियों से अलग-थलग पड़े गाँवों को स्थानीय प्रशासनिक उपस्थिति की आवश्यकता होती है।
- But handing out districts is not democracy.
लेकिन केवल जिलों का गठन कर देना लोकतंत्र नहीं है।
- Districts cannot legislate on land protection, demographic safeguards, ecological preservation, employment priorities, cultural autonomy, renewable energy negotiations, education policy or the long-term developmental vision of the region.



जिले भूमि संरक्षण, जनसांख्यिकीय सुरक्षा, पारिस्थितिक संरक्षण, रोजगार प्राथमिकताओं, सांस्कृतिक स्वायत्तता, नवीकरणीय ऊर्जा वार्ताओं, शिक्षा नीति अथवा क्षेत्र के दीर्घकालिक विकास दृष्टिकोण पर कानून नहीं बना सकते।

- Districts are instruments of administration. Legislatures are instruments of representation. जिले प्रशासन के उपकरण हैं, जबकि विधानमंडल प्रतिनिधित्व के उपकरण हैं।
- A district magistrate implements policy. A legislature shapes the future of a people. एक जिला मजिस्ट्रेट नीतियों को लागू करता है, जबकि विधानमंडल किसी समाज के भविष्य को आकार देता है।
- A district reports upward to the bureaucracy. A legislature answers downward to citizens. एक जिला प्रशासनिक तंत्र को उत्तरदायी होता है, जबकि विधानमंडल नागरिकों के प्रति उत्तरदायी होता है।
- No amount of administrative decentralisation and convenience can substitute for political agency. प्रशासनिक विकेंद्रीकरण और सुविधा का कोई भी स्तर राजनीतिक अधिकारों का विकल्प नहीं बन सकता।

Expendable electoral promises

त्याज्य चुनावी वादे

- The most troubling aspect of the present discourse is that the **Government of India** itself repeatedly promised constitutional safeguards to Ladakh. वर्तमान विमर्श का सबसे चिंताजनक पक्ष यह है कि स्वयं **भारत सरकार** ने लद्दाख को बार-बार संवैधानिक सुरक्षा का आश्वासन दिया था।
- After the abrogation of **Article 370** and the creation of the **Union Territory in 2019**, assurances regarding **Sixth Schedule** protections were publicly articulated by leaders of the **Bharatiya Janata Party** and reflected in their election manifestoes for the **MP and Hill Council elections in 2019 and 2020**, respectively. अनुच्छेद 370 के निरसन और 2019 में केंद्र शासित प्रदेश के गठन के बाद, **भारतीय जनता पार्टी** के नेताओं ने सार्वजनिक रूप से **छठी अनुसूची** के अंतर्गत सुरक्षा का आश्वासन दिया था, और यह उनके 2019 तथा 2020 के क्रमशः **सांसद और हिल काउंसिल चुनावों** के घोषणापत्रों में भी परिलक्षित हुआ था।
- Yet, once the elections were over, and the party won based on these very manifestos, it went back on its commitments, raising ethical questions: Can promises made to frontier populations become expendable after elections? फिर भी, चुनाव समाप्त होने और इन्हीं घोषणापत्रों के आधार पर पार्टी की विजय के बाद, वह अपने वादों से पीछे हट गई, जिससे नैतिक प्रश्न उत्पन्न होते हैं: क्या सीमावर्ती क्षेत्रों की जनता से किए गए वादे चुनावों के बाद त्याज्य बन जाते हैं?

The case of the northeast

पूर्वोत्तर का मामला

- What of the objections themselves? स्वयं इन आपत्तियों का क्या आधार है?
- Take the first one — that **Ladakh** is too strategic a border to be trusted with self-government. पहली आपत्ति यह है कि **लद्दाख** अत्यधिक सामरिक सीमा क्षेत्र है, इसलिए उस पर स्वशासन के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता।
- **Arunachal Pradesh** shares one of India's most sensitive borders with **China**. **अरुणाचल प्रदेश** की सीमा **चीन** के साथ भारत की सबसे संवेदनशील सीमाओं में से एक है।
- It is geographically vast, sparsely populated, strategically critical and financially dependent on the Centre.



वह भौगोलिक रूप से विशाल, कम जनसंख्या वाला, सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण तथा वित्तीय रूप से केंद्र पर निर्भर है।

- Yet, when it was granted full statehood in **1987**, its strategic location was not viewed as a security risk, but as a strategic necessity.
फिर भी, जब उसे **1987** में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, तब उसकी सामरिक स्थिति को सुरक्षा जोखिम नहीं, बल्कि एक सामरिक आवश्यकता के रूप में देखा गया।
- India understood that border populations cannot be held merely through bureaucratic administration or military presence.
भारत ने यह समझा कि सीमावर्ती क्षेत्रों की जनता को केवल नौकरशाही प्रशासन या सैन्य उपस्थिति के माध्यम से नहीं जोड़ा जा सकता।
- The people who feel politically enfranchised and constitutionally respected defend a nation more fiercely than people who merely live inside its lines.
जो लोग स्वयं को राजनीतिक रूप से सशक्त और संवैधानिक रूप से सम्मानित महसूस करते हैं, वे केवल सीमाओं के भीतर रहने वाले लोगों की तुलना में राष्ट्र की अधिक दृढ़ता से रक्षा करते हैं।
- If strategic sensitivity was an argument for empowerment in one Himalayan frontier, by what logic does it become an argument against it in another?
यदि एक हिमालयी सीमांत क्षेत्र में सामरिक संवेदनशीलता सशक्तिकरण का आधार बन सकती है, तो दूसरे क्षेत्र में वही तर्क उसके विरोध का आधार कैसे बन जाता है?
- The same applies to much of the **Northeast**.
यही बात अधिकांश पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर भी लागू होती है।
- **When Nagaland was granted statehood in 1963, its population was barely around 3.5 lakh.**
जब नागालैंड को **1963** में राज्य का दर्जा दिया गया, तब उसकी जनसंख्या लगभग **3.5 लाख** थी।
- **Mizoram became a State in 1987 with a population of roughly five lakh.**
मिजोरम को **1987** में लगभग **पाँच लाख** की जनसंख्या के साथ राज्य बनाया गया।
- **Sikkim entered the Indian Union as a state in 1975 with a population of barely two lakh.**
सिक्किम **1975** में लगभग **दो लाख** की जनसंख्या के साथ भारतीय संघ का राज्य बना।
- **Arunachal Pradesh** itself had roughly **six lakh** people at the time of statehood.
स्वयं अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या राज्य बनने के समय लगभग **छह लाख** थी।
- **None of these States was financially self-sufficient.**
इनमें से कोई भी राज्य वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर नहीं था।
- Many remain substantially dependent on central transfers even today.
इनमें से कई राज्य आज भी केंद्रीय वित्तीय हस्तांतरण पर काफी हद तक निर्भर हैं।
- India did not tell them that they were too small, or too poor, or too remote for a legislature.
भारत ने उनसे यह नहीं कहा कि वे विधानमंडल के लिए बहुत छोटे, बहुत गरीब या बहुत दूरस्थ हैं।
- It understood that you do not integrate a frontier through subsidy and garrison alone.
भारत ने यह समझा कि किसी सीमांत क्षेत्र का एकीकरण केवल अनुदान और सैन्य छावनियों के माध्यम से नहीं किया जा सकता।
- You integrate it through belonging.
उसका एकीकरण अपनत्व की भावना के माध्यम से होता है।
- Which brings us to the fiscal objection — the weakest of the three.
यह हमें वित्तीय आपत्ति तक ले आता है — जो तीनों में सबसे कमजोर तर्क है।
- **Ladakh**, we are told, cannot generate enough revenue to sustain itself.
हमें बताया जाता है कि **लद्दाख** अपने अस्तित्व के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न नहीं कर सकता।
- But since when has fiscal solvency become the price of admission to Indian democracy?
लेकिन भारतीय लोकतंत्र में भागीदारी के लिए वित्तीय आत्मनिर्भरता कब से अनिवार्य शर्त बन गई?
- India's federal structure is built on redistribution; the **Finance Commission** exists precisely because some States earn more than others and the Union shares it out.



भारत की संघीय व्यवस्था पुनर्वितरण के सिद्धांत पर आधारित है; वित्त आयोग इसी कारण अस्तित्व में है क्योंकि कुछ राज्य दूसरों की तुलना में अधिक कमाते हैं और संघ उस आय का वितरण करता है।

- Even large States depend heavily on central devolution.
यहाँ तक कि बड़े राज्य भी केंद्रीय वित्तीय हस्तांतरण पर अत्यधिक निर्भर हैं।
- **Uttar Pradesh, the most populous State, draws enormous sums from the Centre through tax devolution, central schemes and grants-in-aid.**
सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश कर हस्तांतरण, केंद्रीय योजनाओं और अनुदानों के माध्यम से केंद्र से भारी वित्तीय सहायता प्राप्त करता है।
- **Bihar, Assam and several Northeastern States** also rely heavily on central transfers (**between 70% and 90% of their expenditure**) to bridge developmental gaps.
बिहार, असम और कई पूर्वोत्तर राज्य भी विकास संबंधी अंतर को कम करने के लिए अपने व्यय का (70% से 90% तक) केंद्रीय हस्तांतरण पर निर्भर करते हैं।
- In many of these States, mountainous terrain, sparse populations and strategic constraints limit conventional revenue generation.
इनमें से अनेक राज्यों में पर्वतीय भूभाग, कम जनसंख्या और सामरिक सीमाएँ पारंपरिक राजस्व सृजन को सीमित करती हैं।
- Yet, no one would argue that **Uttar Pradesh** should surrender its legislature because it depends on central funds.
फिर भी, कोई यह तर्क नहीं देगा कि उत्तर प्रदेश को केवल इसलिए अपना विधानमंडल छोड़ देना चाहिए क्योंकि वह केंद्रीय निधियों पर निर्भर है।
- The suggestion would be absurd.
ऐसा सुझाव पूर्णतः हास्यास्पद होगा।
- Democracy in India has never been a reward for profitability — and if it were, much of the country would fail the test.
भारत में लोकतंत्र कभी भी लाभप्रदता के आधार पर दिया जाने वाला पुरस्कार नहीं रहा है — और यदि ऐसा होता, तो देश का एक बड़ा भाग इस कसौटी पर असफल हो जाता।

Ladakh needs its own voice

लद्दाख को अपनी स्वयं की आवाज़ चाहिए

- And **Ladakhis** are worth hearing — especially when the same establishment that calls Ladakh economically negligible is planning some of India's largest energy infrastructure projects on its land.
और लद्दाख के लोग सुने जाने योग्य हैं — विशेषकर तब, जब वही व्यवस्था जो लद्दाख को आर्थिक रूप से नगण्य बताती है, उसकी भूमि पर भारत की कुछ सबसे बड़ी ऊर्जा अवसंरचना परियोजनाओं की योजना बना रही है।
- The **renewable energy project in the Pang region of Changthang** is expected to generate **nearly 13 gigawatts of power**, spread across acres of high-altitude pastureland.
चांगथांग के पैंग क्षेत्र में प्रस्तावित नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना से लगभग **13 गीगावाट** बिजली उत्पादन की अपेक्षा है, जो ऊँचाई वाले विस्तृत चारागाह क्षेत्रों में फैली होगी।
- With investments of around **₹50,000 crore** and a potential of **₹7,000 crore** of annual income, this is hardly the arithmetic of an insignificant region.
लगभग **₹50,000 करोड़** के निवेश और **₹7,000 करोड़** की संभावित वार्षिक आय के साथ, यह किसी महत्वहीन क्षेत्र का आर्थिक गणित नहीं है।
- It is the arithmetic of a region that is central to India's energy future.
यह उस क्षेत्र का आर्थिक परिदृश्य है जो भारत के ऊर्जा भविष्य के केंद्र में स्थित है।
- **Ladakhis** are increasingly watching decisions being made on solar parks, transmission corridors, mining, tourism expansion and land use.



लद्दाख के लोग सौर पार्को, ट्रांसमिशन कॉरिडोर, खनन, पर्यटन विस्तार और भूमि उपयोग से संबंधित लिए जा रहे निर्णयों को लगातार देख रहे हैं।

- The real question, then, is who negotiates the terms of this transformation. वास्तविक प्रश्न यह है कि इस परिवर्तन की शर्तों पर बातचीत कौन करता है।
- Who decides land rights, grazing rights for **Changpa herders**, ecological limits, local jobs, royalties and inter-generational sustainability? भूमि अधिकार, चांगपा पशुपालकों के चराई अधिकार, पारिस्थितिक सीमाएँ, स्थानीय रोजगार, रॉयल्टी और पीढ़ियों तक टिकाऊ विकास का निर्णय कौन लेता है?
- A district officer cannot answer these questions. एक जिला अधिकारी इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता।
- Nor was he ever meant to. और न ही उसे इसके लिए बनाया गया था।
- That is the role of a legislature — made up of representatives accountable to the people whose lives are being shaped by these decisions. यह कार्य एक विधानमंडल का है — जो ऐसे प्रतिनिधियों से मिलकर बना हो जो उन लोगों के प्रति उत्तरदायी हों जिनके जीवन इन निर्णयों से प्रभावित हो रहे हैं।
- This is what the argument ultimately comes down to. अंततः पूरा तर्क इसी बिंदु पर आकर केंद्रित हो जाता है।
- India's greatness was never administrative tidiness, but the constitutional imagination to hold staggering difference within one Union without flattening it. भारत की महानता कभी प्रशासनिक सुव्यवस्था में नहीं रही, बल्कि उस संवैधानिक कल्पनाशक्ति में रही है जो व्यापक विविधताओं को एक संघ के भीतर समाहित कर सकती है, बिना उन्हें मिटाए।
- That same imagination produced the **Sixth Schedule**, recognising that fragile and distinct frontier regions need protections the plains do not. उसी संवैधानिक दृष्टि ने **छठी अनुसूची** को जन्म दिया, यह स्वीकार करते हुए कि संवेदनशील और विशिष्ट सीमांत क्षेत्रों को उन सुरक्षा उपायों की आवश्यकता है जिनकी आवश्यकता मैदानी क्षेत्रों को नहीं होती।
- Uniformity is not equity. एकरूपता समानता नहीं होती।
- And **Ladakh** is not asking to belong to India less; it is asking to belong more fully — not as a territory administered from afar, but as a people shaping their own future. और लद्दाख भारत से कम जुड़ाव की मांग नहीं कर रहा है; वह अधिक पूर्ण रूप से जुड़ने की मांग कर रहा है — एक दूर से प्रशासित क्षेत्र के रूप में नहीं, बल्कि अपने भविष्य को स्वयं आकार देने वाले समाज के रूप में।
- That distinction matters. यह अंतर महत्वपूर्ण है।
- **Sri Aurobindo** wrote that freedom is the necessary atmosphere for a nation's soul to grow. श्री अरविंद ने लिखा था कि स्वतंत्रता किसी राष्ट्र की आत्मा के विकास के लिए आवश्यक वातावरण है।
- India's spirit has often been strongest at its edges — in places that chose Bharat and defended it through hardship and sacrifice without asking what it cost. भारत की आत्मा अक्सर उसकी सीमाओं पर सबसे अधिक सशक्त रही है — उन स्थानों पर जिन्होंने भारत को चुना और कठिनाइयों तथा बलिदान के माध्यम से उसकी रक्षा की, बिना यह पूछे कि इसकी कीमत क्या होगी।
- The strength of a republic is not measured by how tightly it controls its frontiers, but by how deeply even its farthest regions feel they belong. किसी गणराज्य की शक्ति इस बात से नहीं मापी जाती कि वह अपनी सीमाओं को कितनी कठोरता से नियंत्रित करता है, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि उसके सबसे दूरस्थ क्षेत्र भी स्वयं को उससे कितनी गहराई से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।
- The voice rising from **Ladakh** today is not a demand for privilege, but a quiet appeal to be trusted with its own future.



आज लद्दाख से उठ रही आवाज़ किसी विशेषाधिकार की मांग नहीं है, बल्कि अपने भविष्य के साथ विश्वासपूर्वक व्यवहार किए जाने की एक शांत अपील है।

GS II: Polity

Bat for the better

Courts must treat tax exemptions to the BCCI as a form of state grant

The RTI Act was originally designed to scrutinise the state, a limit that the BCCI has repeatedly tested thanks to its outsized power. The BCCI is a private body that operates commercially and lacks direct public financing. RTI disclosures could expose competitive information and compromise the flexibility required to govern a sport, especially since the BCCI already has anti-corruption measures and comes under judicial review if required. If the BCCI is brought under the Act's remit, there is also a risk of political forces abusing transparency requirements to exert greater influence on cricket administration. Even so, the Central Information Commission's (CIC) recent decision to exclude the BCCI from the RTI Act is unlikely to go uncontested because the body has also monopolised a national sport. The BCCI benefits from national symbolism, police deployment at matches, concessional land allotments, and State hospitality; uses public stadium infrastructure; enjoys the regulatory privileges accruing to its monopoly status; and negotiates with foreign boards in ways that sometimes overlap with diplomacy. These liberties have thus sustained civil society concerns about being unable to scrutinise its conflicts of interest and governance arrangements.

Under Section 2(h) of the RTI Act, the BCCI is not a constitutional or statutory body and was not created by government notification, leaving the matter to turn on whether it can be said to be under state control or financing. Following disputes in 2005 and 2013, the Supreme Court repeatedly said in 2015-16, when the BCCI was adopting the Lodha committee recommendations, that it performs public duties. The Law Commission furthered this position in 2018 because, it added, the BCCI also serves as a National Sports Federation without the Sports Ministry recognising it as one and received tax exemptions worth ₹2,100 crore in 1997-2007 alone, a figure the Commission interpreted as foregone state revenue. Subsequently, former Information Commissioner Sridhar Acharyulu ruled the BCCI to be a public authority under Section 2(h). The Madras High Court stayed the order, and the CIC has now reversed the ruling. The CIC has admitted that the BCCI exerts a significant influence on public life while insisting that its decision is based on Section 2(h) alone. There is a contradiction between writ jurisdiction applying to the BCCI – as the Court affirmed in 2015 – even as the body is private enough to conceal its internal records. At this time, Section 2(h) should be amended to include any body discharging public duties, especially with monopoly power, perhaps by creating a category that simultaneously protects the BCCI's commercial interests. Courts must also treat tax exemptions as a form of state grant.

hospitality; uses public stadium infrastructure; enjoys the regulatory privileges accruing to its monopoly status; and negotiates with foreign boards in ways that sometimes overlap with diplomacy.

बीसीसीआई राष्ट्रीय प्रतीकात्मकता, मैचों में पुलिस तैनाती, रियायती भूमि आवंटन तथा राज्य आतिथ्य का लाभ उठाता है; सार्वजनिक स्टेडियम अवसंरचना का उपयोग करता है; अपने एकाधिकार की स्थिति से प्राप्त

22M. Bat for the better बेहतर व्यवस्था के लिए बल्ला

• Courts must treat tax exemptions to the BCCI as a form of state grant.

न्यायालयों को बीसीसीआई (BCCI) को दी जाने वाली कर छूट को राज्य अनुदान के एक स्वरूप के रूप में मानना चाहिए।

• The RTI Act was originally designed to scrutinise the state, a limit that the BCCI has repeatedly tested thanks to its outsized power. आरटीआई अधिनियम मूल रूप से राज्य की जांच-पड़ताल के लिए बनाया गया था, और बीसीसीआई ने अपनी अत्यधिक शक्ति के कारण बार-बार इसकी सीमाओं की परीक्षा ली है।

• The BCCI is a private body that operates commercially and lacks direct public financing.

बीसीसीआई एक निजी संस्था है जो व्यावसायिक रूप से कार्य करती है और जिसे प्रत्यक्ष सार्वजनिक वित्तपोषण प्राप्त नहीं होता।

• RTI disclosures could expose competitive information and compromise the flexibility required to govern a sport, especially since the BCCI already has anti-corruption measures and comes under judicial review if required.

आरटीआई के अंतर्गत सूचनाओं के प्रकटीकरण से प्रतिस्पर्धात्मक जानकारी उजागर हो सकती है और खेल संचालन के लिए आवश्यक लचीलेपन पर प्रभाव पड़ सकता है, विशेषकर तब जब बीसीसीआई के पास पहले से ही भ्रष्टाचार-रोधी उपाय मौजूद हैं और आवश्यकता पड़ने पर वह न्यायिक समीक्षा के दायरे में आता है।

• If the BCCI is brought under the Act's remit, there is also a risk of political forces abusing transparency requirements to exert greater influence on cricket administration.

यदि बीसीसीआई को इस अधिनियम के दायरे में लाया जाता है, तो पारदर्शिता संबंधी प्रावधानों का दुरुपयोग कर राजनीतिक शक्तियों द्वारा क्रिकेट प्रशासन पर अधिक प्रभाव डालने का जोखिम भी उत्पन्न हो सकता है।

• Even so, the Central Information Commission (CIC)'s recent decision to exclude the BCCI from the RTI Act is unlikely to go uncontested because the body has also monopolised a national sport.

फिर भी, केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) द्वारा बीसीसीआई को आरटीआई अधिनियम से बाहर रखने का हालिया निर्णय बिना चुनौती के नहीं रहेगा, क्योंकि इस संस्था ने एक राष्ट्रीय खेल पर एकाधिकार स्थापित कर रखा है।

• The BCCI benefits from national symbolism, police deployment at matches, concessional land allotments, and State



नियामकीय विशेषाधिकारों का आनंद लेता है; और विदेशी क्रिकेट बोर्डों के साथ ऐसे तरीके से वार्ता करता है जो कभी-कभी कूटनीति से भी जुड़ जाते हैं।

- These liberties have thus sustained civil society concerns about being unable to scrutinise its conflicts of interest and governance arrangements.

इन विशेषाधिकारों के कारण नागरिक समाज में उसके हितों के टकराव और प्रशासनिक व्यवस्थाओं की जांच न कर पाने को लेकर चिंताएँ बनी हुई हैं।

- Under **Section 2(h)** of the RTI Act, the **BCCI** is not a constitutional or statutory body and was not created by government notification, leaving the matter to turn on whether it can be said to be under state control or financing.

आरटीआई अधिनियम की धारा 2(ह) के अंतर्गत बीसीसीआई न तो संवैधानिक और न ही वैधानिक संस्था है, तथा इसका गठन सरकारी अधिसूचना द्वारा नहीं किया गया था, इसलिए प्रश्न यह रह जाता है कि क्या इसे राज्य के नियंत्रण या वित्तपोषण के अंतर्गत माना जा सकता है।

- Following disputes in 2005 and 2013, the **Supreme Court** repeatedly said in 2015-16, when the BCCI was adopting the **Lodha committee recommendations**, that it performs public duties.

2005 और 2013 के विवादों के बाद, जब 2015-16 में बीसीसीआई द्वारा लोढ़ा समिति की सिफारिशें अपनाई जा रही थीं, तब सर्वोच्च न्यायालय ने बार-बार कहा कि यह संस्था सार्वजनिक दायित्वों का निर्वहन करती है।

- The **Law Commission** furthered this position in 2018 because, it added, the BCCI also serves as a **National Sports Federation** without the Sports Ministry recognising it as one and received tax exemptions worth **₹2,100 crore** in 1997-2007 alone, a figure the Commission interpreted as foregone state revenue.

विधि आयोग ने 2018 में इस दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए कहा कि बीसीसीआई खेल मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त न होने के बावजूद एक राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में कार्य करता है तथा उसे केवल 1997-2007 के दौरान ही ₹2,100 करोड़ के कर छूट लाभ प्राप्त हुए, जिसे आयोग ने राज्य के त्यागे गए राजस्व के रूप में देखा।

- Subsequently, former **Information Commissioner Sridhar Acharyulu** ruled the BCCI to be a public authority under **Section 2(h)**.

इसके बाद पूर्व सूचना आयुक्त श्रीधर आचार्युलु ने धारा 2(ह) के अंतर्गत बीसीसीआई को एक सार्वजनिक प्राधिकरण घोषित किया।

- The **Madras High Court** stayed the order, and the **CIC** has now reversed the ruling.

मद्रास उच्च न्यायालय ने इस आदेश पर रोक लगा दी, और अब सीआईसी ने उस निर्णय को पलट दिया है।

- The **CIC** has admitted that the BCCI exerts a significant influence on public life while insisting that its decision is based on **Section 2(h)** alone.

सीआईसी ने स्वीकार किया है कि बीसीसीआई सार्वजनिक जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है, जबकि उसने यह भी कहा कि उसका निर्णय केवल धारा 2(ह) पर आधारित है।

- There is a contradiction between writ jurisdiction applying to the **BCCI** — as the Court affirmed in 2015 — even as the body is private enough to conceal its internal records.

यह एक विरोधाभास है कि एक ओर 2015 में न्यायालय ने बीसीसीआई पर रिट क्षेत्राधिकार लागू होने की पुष्टि की, जबकि दूसरी ओर यह संस्था इतनी निजी मानी जाती है कि अपने आंतरिक अभिलेखों को गोपनीय रख सके।

- At this time, **Section 2(h)** should be amended to include any body discharging public duties, especially with monopoly power, perhaps by creating a category that simultaneously protects the BCCI's commercial interests.

वर्तमान समय में धारा 2(ह) में संशोधन कर उसमें उन सभी संस्थाओं को शामिल किया जाना चाहिए जो सार्वजनिक दायित्व निभाती हैं, विशेषकर वे जिनके पास एकाधिकार शक्ति है, संभवतः ऐसी श्रेणी बनाकर जो बीसीसीआई के व्यावसायिक हितों की भी रक्षा करे।

- Courts must also treat tax exemptions as a form of state grant.

न्यायालयों को कर छूट को भी राज्य अनुदान के एक रूप के रूप में मान्यता देनी चाहिए।



GS Paper II: Governance

22 May 2026

TOPICS COVERED

**22M Should the NEET-UG be decentralised?
क्या NEET-UG का विकेन्द्रीकरण किया जाना चाहिए?**

Should the NEET-UG be decentralised?



Dr. G.R. Ravindranath
Founder and General Secretary, Doctors' Association for Social Equality.

PARLEY
The cancellation and retest of the National Eligibility cum Entrance Test (NEET-UG), 2026 has exposed deep cracks in India's examination system. Allegations of paper leaks, corruption and repeated lapses by the National Testing Agency (NTA) has pushed lakhs of aspirants into uncertainty, stress and emotional exhaustion. This has led to many asking whether such a high-stakes, single day, single shift, national exam for admission to all medical courses in India should be decentralised. Dr. G.R. Ravindranath and Balaji Sampath discuss the question in a conversation moderated by Bindu Shajan Perappadan. Edited excerpts:



Balaji Sampath
Founder, AhaGuru

Since its inception in 2013, the NEET has been marred by controversies. What was intended as a transparent and uniform entrance exam has instead become synonymous with administrative lapses. Is the answer then to decentralise the exam?

G.R. Ravindranath: NEET has reduced the burden of multiple medical entrance exams and lowered students' financial, mental and physical stress. Unlike Plus Two cut-off admissions, NEET offers multiple attempts, giving students another chance to improve. However, rural, poor and government school students remain disadvantaged due to unequal access to coaching and resources. Measures such as special reservations, fee support scholarships, additional marks, and free coaching classes for government school students can ensure equitable opportunities. Tamil Nadu's 7.5% reservation for government school students can serve as a model for nationwide reforms to make NEET fairer and more inclusive. States should be allowed to conduct their own entrance exams and admit students in order to ensure that students from vulnerable socio-economic sections are not put at a disadvantage.

Balaji Sampath: Single window exams such as NEET have only increased the pressure on students because it affords them only a single chance – one time a year to get into various medical courses across India.

Moreover, NEET is both an entrance and eligibility test. Entrance for government seats and eligibility for management seats in private medical colleges. When the Supreme Court made NEET compulsory, the private college lobby pushed for keeping the qualifying marks really low (at 50th percentile which is around 120 to 140 marks out of 720). So a student who scores 130, qualifies NEET and is eligible to buy a management seat. However, poor and middle



Students' organisations stage a protest against the NTA following the cancellation of the NEET-UG, in New Delhi on May 14. SHW KUMAR PUSHPAKAR

class students who score 400 are unable to pay and get these management seats. Given that there are only 1.37 lakhs seats and 22 lakhs students writing NEET, the cut-off should be kept much higher. This will ensure that rich students who score 130-350 do not pay and steal the seats of those who get much higher scores.

Why is the NEET exam marred by repeated allegations about paper leaks?

BS: To understand the vulnerability of the exam, we have to understand the scale that the paper targets. This pen-and-paper exam has 22 lakh students who compete for less than two lakh seats across all medical courses. The problem originates here and gets accentuated by dropper students who have money power; they are people who are ready to pay ₹20 lakh to get a guess paper. One has to understand that this corruption is driven by money power and desperation. In its current form, NEET has become an intensely high-stakes exam. Over half the candidates are repeaters, some attempting it for years, deepening desperation and fuelling paper leaks and corruption. Limiting attempts, while offering extra chances and reservations for disadvantaged students, could reduce pressure and improve fairness. A two-stage examination system, as recommended by the K. Radhakrishnan Committee – set up by the Central government after allegations of corruption in the NEET 2024 paper – could reduce incentives for cheating by filtering candidates through a preliminary qualifier before a more tightly monitored final exam.

GRR: The lack of effective regulation over private medical colleges and the fees of deemed medical universities has significantly deepened inequities in admissions. Under the National Medical Commission Act, fee regulation applies only to 50% of seats, while private colleges are



The pressure surrounding medical education is shaped by strong socio-economic and cultural factors, making NEET a far more high-stakes examination

DR. G.R. RAVINDRANATH

free to fix exorbitant fees for the remaining seats, making medical education inaccessible to many deserving students. Although anti-capitation laws exist, enforcement remains weak and requires urgent strengthening. The mop-up counselling and stray counselling conducted by private colleges and deemed universities pave the way for malpractice and eliminates merit based admissions. State government-controlled and Union government-controlled seats should be filled by the respective government authorities. Private institutions should not be allowed to admit students directly.

Also, medical admissions cannot be compared with engineering admissions, where vacancies remain high due to unemployment and declining demand. The pressure surrounding medical education is shaped by strong socio-economic and cultural factors, making NEET a far more high-stakes exam.

States should be granted greater autonomy in admissions through amendments to the National Medical Commission Act. States willing to opt out of NEET should be allowed to adopt systems based on Plus Two marks, State-level entrance tests, or a combination of both. Further reforms are necessary to reduce excessive competition. These include limiting the number of NEET attempts, introducing age limits, and fixing minimum eligibility marks at 60% in science subjects in Class 12th examinations for open quota and OBC students, and 50% for SC/ST students applying for NEET.

At the same time, NEET should continue for all-India quota seats, AIIMS, JPMER, deemed universities, and management quota seats of private medical colleges. For these seats, admissions cannot be made on the basis of Plus Two marks or any State government exam because, for these seats, students from all over the country, as well as NRIs, overseas citizens of India and foreign nationals can also apply.

After the 2024 NEET paper leak controversy, the K. Radhakrishnan Committee identified major security lapses, including poor CCTV monitoring and excessive reliance on contractual staff within the NTA. Why has the government not fully implemented the Committee's recommendations?

BS: The NTA did not implement most of the important recommendations of the K. Radhakrishnan committee. The Committee's recommendations can be categorised into three types: improving NTA's capacity, strengthening security measures such as CCTV surveillance and safer paper transport, and most importantly, reducing the high-stakes nature of NEET itself. The third category is particularly important, but nothing was done about it. The most important recommendation was to conduct NEET in two stages. The first stage, the prelims, can select five lakh students out of the 22 lakhs and these five lakh students can then write the main NEET exam which will be used for medical college admission. This will dramatically reduce paper leaks. The second major recommendation was to limit the number of attempts. This will reduce the number of repeaters who in their desperation are often ready to pay large amounts for leaked papers. To ensure equity, two more attempts can be allowed for SC/ST and BPL (Below Poverty Line) students. The NTA did not implement any of these recommendations.

GRR: Among the several suggestions of the Committee, one of the most important was a computer based test which was never implemented. Also, that coaching centres across India should be registered, regulated and that fees should be fixed. Our association opposed demands to abolish NEET entirely, arguing that doing so would require multiple entrance exams.

With lakhs of students now forced to retake NEET, many families have been pushed into severe emotional and financial distress. Both of you have been directly in touch with the aggrieved side, how do you view these repeated large-scale disruptions?

GRR: Although the authorities have now announced a NEET re-examination on June 21, the initial cancellation created enormous uncertainty and emotional distress among students.

It has created widespread anger, disappointment and a growing loss of confidence in the impartiality and credibility of national competitive examinations, leaving students feeling uncertain about their future. The Union government and the NTA should take the responsibility for the question paper leakage. In future such things should not recur.



To listen to the full interview scan the code or go to the link www.thehindu.com

**22M. Should the NEET-UG be decentralised?
क्या NEET-UG का विकेन्द्रीकरण किया जाना चाहिए?**

- The cancellation and retest of the **National Eligibility cum Entrance Test (NEET-UG), 2026** has exposed deep cracks in India's examination system.
राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट-यूजी), 2026 की रद्दीकरण और पुनर्परीक्षा ने भारत की परीक्षा प्रणाली की गहरी खामियों को उजागर कर दिया है।
- Allegations of paper leaks, corruption and repeated lapses by the **National Testing Agency (NTA)** has pushed lakhs of aspirants into uncertainty, stress and emotional exhaustion.
राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) पर प्रश्नपत्र लीक, भ्रष्टाचार और बार-बार की गई त्रुटियों के आरोपों ने लाखों अभ्यर्थियों को अनिश्चितता, तनाव और मानसिक थकावट की स्थिति में पहुँचा दिया है।
- This has led to many asking whether such a **high-stakes, single day, single shift, national exam for admission to all medical courses in India should be decentralised.**
इसने अनेक लोगों को यह प्रश्न उठाने के लिए प्रेरित किया है कि भारत में सभी चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित इस अत्यधिक महत्वपूर्ण, एक-दिवसीय, एकल पाली वाली राष्ट्रीय परीक्षा का विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए या नहीं।
- Dr. G.R. Ravindranath** and **Balaji Sampath** discuss the question in a conversation moderated by **Bindu Shajan Perappadan.**



डॉ. जी.आर. रविंद्रनाथ और बालाजी संपत ने इस प्रश्न पर बिंदु शाजन पेरप्पादन द्वारा संचालित चर्चा में विचार व्यक्त किए।

- Edited excerpts:
संपादित अंश:
- Since its inception in 2013, the NEET has been marred by controversies.
2013 में प्रारंभ होने के बाद से नीट विवादों से घिरा रहा है।

What was envisioned as a transparent and uniform entrance exam has instead become synonymous with administrative lapses.

जिस परीक्षा की कल्पना एक पारदर्शी और समान प्रवेश परीक्षा के रूप में की गई थी, वह अब प्रशासनिक त्रुटियों का पर्याय बन गई है।

Is the answer then to decentralise the exam?

क्या इसका समाधान परीक्षा का विकेंद्रीकरण है?

- **G.R. Ravindranath:** NEET has reduced the burden of multiple medical entrance exams and lowered students' financial, mental and physical stress.
जी.आर. रविंद्रनाथ: नीट ने अनेक चिकित्सा प्रवेश परीक्षाओं के बोझ को कम किया है तथा विद्यार्थियों के आर्थिक, मानसिक और शारीरिक तनाव को घटाया है।
- Unlike Plus Two cut-off admissions, NEET offers multiple attempts, giving students another chance to improve.
प्लस टू कट-ऑफ आधारित प्रवेश प्रक्रिया के विपरीत, नीट विद्यार्थियों को कई प्रयासों का अवसर प्रदान करता है, जिससे उन्हें सुधार का एक और मौका मिलता है।
- However, rural, poor and government school students remain disadvantaged due to unequal access to coaching and resources.
हालाँकि, ग्रामीण, गरीब और सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थी कोचिंग तथा संसाधनों तक असमान पहुँच के कारण अब भी वंचित स्थिति में हैं।
- Measures such as special reservations, fee support scholarships, additional marks, and free coaching classes for government school students can ensure equitable opportunities.
विशेष आरक्षण, शुल्क सहायता छात्रवृत्ति, अतिरिक्त अंक तथा सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क कोचिंग जैसी व्यवस्थाएँ समान अवसर सुनिश्चित कर सकती हैं।
- **Tamil Nadu's 7.5% reservation for government school students can serve as a model for nationwide reforms to make NEET fairer and more inclusive.**
सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए तमिलनाडु का 7.5% आरक्षण नीट को अधिक न्यायसंगत और समावेशी बनाने हेतु राष्ट्रीय स्तर के सुधारों का मॉडल बन सकता है।
- States should be allowed to conduct their own entrance exams and admit students in order to ensure that students from vulnerable socio-economic sections are not put at a disadvantage.
राज्यों को अपनी स्वयं की प्रवेश परीक्षाएँ आयोजित करने और विद्यार्थियों को प्रवेश देने की अनुमति दी जानी चाहिए, ताकि सामाजिक-आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों को नुकसान न उठाना पड़े।
- **Balaji Sampath:** Single window exams such as NEET have only increased the pressure on students because it affords them only a single chance — one time a year to get into various medical courses across India.
बालाजी संपत: नीट जैसी एकल प्रवेश प्रणाली वाली परीक्षाओं ने विद्यार्थियों पर दबाव बढ़ाया है क्योंकि यह उन्हें केवल एक अवसर प्रदान करती है — पूरे भारत में विभिन्न चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए वर्ष में केवल एक बार।
- Moreover, NEET is both an entrance and eligibility test.
इसके अतिरिक्त, नीट एक प्रवेश तथा पात्रता परीक्षा दोनों है।
- Entrance for government seats and eligibility for management seats in private medical colleges.



यह सरकारी सीटों के लिए प्रवेश परीक्षा तथा निजी चिकित्सा महाविद्यालयों की प्रबंधन सीटों के लिए पात्रता परीक्षा है।

- When the **Supreme Court** made NEET compulsory, the private college lobby pushed for keeping the qualifying marks really low (at **50th percentile** which is around **120 to 140 marks out of 720**).

जब **सर्वोच्च न्यायालय** ने नीट को अनिवार्य बनाया, तब निजी महाविद्यालयों के समूह ने उत्तीर्णकों को बहुत कम रखने के लिए दबाव डाला (**50वाँ परसेंटाइल**, जो **720 में लगभग 120 से 140 अंक** के बराबर है)।

- So a student who scores 130, qualifies NEET and is eligible to buy a management seat. इस प्रकार, 130 अंक प्राप्त करने वाला विद्यार्थी नीट उत्तीर्ण कर प्रबंधन सीट खरीदने के योग्य हो जाता है।
- However, poor and middle class students who score 400 are unable to pay and get these management seats. हालाँकि, 400 अंक प्राप्त करने वाले गरीब और मध्यमवर्गीय विद्यार्थी इन प्रबंधन सीटों का शुल्क वहन नहीं कर पाते।
- Given that there are only **1.37 lakh seats** and **22 lakh students** writing NEET, the **cut-off should be kept much higher**. यह देखते हुए कि केवल **1.37 लाख सीटें** हैं और **22 लाख विद्यार्थी** नीट परीक्षा देते हैं, कट-ऑफ को अधिक ऊँचा रखा जाना चाहिए।
- This will ensure that rich students who score 130-350 do not pay and steal the seats of those who get much higher scores. इससे यह सुनिश्चित होगा कि 130-350 अंक प्राप्त करने वाले संपन्न विद्यार्थी धन के बल पर उन विद्यार्थियों की सीटें न ले सकें जो उनसे कहीं अधिक अंक प्राप्त करते हैं।

Why is the NEET exam marred by repeated allegations about paper leaks?

नीट परीक्षा बार-बार प्रश्नपत्र लीक के आरोपों से क्यों घिरी रहती है?

- **BS:** To understand the vulnerability of the exam, we have to understand the scale that the paper targets.
बीएस: परीक्षा की संवेदनशीलता को समझने के लिए हमें उस स्तर को समझना होगा जिसे यह प्रश्नपत्र लक्षित करता है।
- This pen-and-paper exam has **22 lakh students** who compete for less than **two lakh seats** across all medical courses.
इस पेन-एंड-पेपर परीक्षा में **22 लाख विद्यार्थी** सभी चिकित्सा पाठ्यक्रमों की **दो लाख से कम सीटों** के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं।
- The **problem originates here and gets accentuated by dropper students who have money power; they are people who are ready to pay ₹30 lakh to get a guess paper**.
समस्या यहीं से उत्पन्न होती है और आर्थिक रूप से सक्षम ड्रॉपर विद्यार्थियों के कारण और बढ़ जाती है; वे ऐसे लोग हैं जो अनुमानित प्रश्नपत्र प्राप्त करने के लिए **₹30 लाख** तक देने को तैयार रहते हैं।
- **One has to understand that this corruption is driven by money power and desperation**.
यह समझना आवश्यक है कि यह भ्रष्टाचार धनबल और निराशा से प्रेरित है।
- In its current form, **NEET** has become an intensely high-stakes exam.
अपने वर्तमान स्वरूप में **नीट** अत्यधिक महत्वपूर्ण और दबावपूर्ण परीक्षा बन चुकी है।
- Over half the candidates are repeaters, some attempting it for years, deepening desperation and fuelling paper leaks and corruption.
आधे से अधिक अभ्यर्थी पुनः परीक्षा देने वाले होते हैं, जिनमें कुछ कई वर्षों से प्रयास कर रहे हैं, जिससे निराशा बढ़ती है और प्रश्नपत्र लीक तथा भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है।
- Limiting attempts, while offering extra chances and reservations for disadvantaged students, could reduce pressure and improve fairness.



प्रयासों की संख्या सीमित करते हुए वंचित विद्यार्थियों को अतिरिक्त अवसर और आरक्षण प्रदान करना दबाव कम कर सकता है तथा निष्पक्षता में सुधार ला सकता है।

- A **two-stage examination system**, as recommended by the **K. Radhakrishnan Committee** — set up by the Central government after allegations of corruption in the **NEET 2024** paper — could reduce incentives for cheating by filtering candidates through a preliminary qualifier before a more tightly monitored final exam.

दो-स्तरीय परीक्षा प्रणाली, जैसा कि **के. राधाकृष्णन समिति** ने सुझाव दिया था — जिसे केंद्र सरकार ने **नीट 2024** प्रश्नपत्र में भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद गठित किया था — प्रारंभिक पात्रता परीक्षा के माध्यम से अभ्यर्थियों को छाँटकर अधिक कड़ी निगरानी वाली अंतिम परीक्षा से पहले नकल की प्रवृत्ति को कम कर सकती है।

- **GRR: The lack of effective regulation over private medical colleges and the fees of deemed medical universities has significantly deepened inequities in admissions.**

जीआरआर: निजी चिकित्सा महाविद्यालयों और डीमड चिकित्सा विश्वविद्यालयों की फीस पर प्रभावी विनियमन के अभाव ने प्रवेश प्रक्रिया में असमानताओं को काफी बढ़ा दिया है।

- Under the **National Medical Commission Act**, fee regulation applies only to **50% of seats**, while private colleges are free to fix exorbitant fees for the remaining seats, making medical education inaccessible to many deserving students.

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम के अंतर्गत शुल्क विनियमन केवल **50% सीटों** पर लागू होता है, जबकि निजी महाविद्यालय शेष सीटों के लिए अत्यधिक शुल्क निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं, जिससे चिकित्सा शिक्षा अनेक योग्य विद्यार्थियों की पहुँच से बाहर हो जाती है।

- Although **anti-capitation laws** exist, enforcement remains weak and requires urgent strengthening.

यद्यपि कैपिटेशन शुल्क विरोधी कानून मौजूद हैं, उनका प्रवर्तन अभी भी कमजोर है और इसे तत्काल सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

- The mop-up counselling and stray counselling conducted by private colleges and deemed universities pave the way for malpractice and eliminates merit based admissions.

निजी महाविद्यालयों और डीमड विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित मॉप-अप काउंसलिंग तथा स्ट्रे काउंसलिंग अनियमितताओं का मार्ग प्रशस्त करती हैं और योग्यता आधारित प्रवेश प्रक्रिया को समाप्त कर देती हैं।

- State government-controlled and Union government-controlled seats should be filled by the respective government authorities.

राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित सीटों को संबंधित सरकारी प्राधिकरणों द्वारा भरा जाना चाहिए।

- Private institutions should not be allowed to admit students directly.

निजी संस्थानों को सीधे विद्यार्थियों को प्रवेश देने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

- Also, medical admissions cannot be compared with engineering admissions, where vacancies remain high due to unemployment and declining demand.

इसके अतिरिक्त, चिकित्सा प्रवेशों की तुलना इंजीनियरिंग प्रवेशों से नहीं की जा सकती, जहाँ बेरोजगारी और घटती मांग के कारण बड़ी संख्या में सीटें रिक्त रहती हैं।

- The pressure surrounding medical education is shaped by strong socio-economic and cultural factors, making NEET a far more high-stakes exam.

चिकित्सा शिक्षा के आसपास का दबाव मजबूत सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक कारकों से प्रभावित होता है, जिससे नीट कहीं अधिक महत्वपूर्ण परीक्षा बन जाती है।

- States should be granted greater autonomy in admissions through amendments to the **National Medical Commission Act**.

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम में संशोधन कर राज्यों को प्रवेश प्रक्रिया में अधिक स्वायत्तता प्रदान की जानी चाहिए।

- States willing to opt out of NEET should be allowed to adopt systems based on Plus Two marks, State-level entrance tests, or a combination of both.



जो राज्य नीट से बाहर होना चाहते हैं, उन्हें प्लस टू अंकों, राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षाओं या दोनों के संयोजन पर आधारित प्रणाली अपनाने की अनुमति दी जानी चाहिए।

- **Further reforms are necessary to reduce excessive competition.**
अत्यधिक प्रतिस्पर्धा को कम करने के लिए और सुधार आवश्यक हैं।
- These include **limiting the number of NEET attempts, introducing age limits, and fixing minimum eligibility marks at 60% in science subjects in Class 12th examinations for open quota and OBC students, and 50% for SC/ST students applying for NEET.**
इनमें नीट प्रयासों की संख्या सीमित करना, आयु सीमा लागू करना, तथा ओपन कोटा और ओबीसी विद्यार्थियों के लिए कक्षा 12वीं के विज्ञान विषयों में 60% अंक, तथा एससी/एसटी विद्यार्थियों के लिए 50% अंक न्यूनतम पात्रता के रूप में निर्धारित करना शामिल है।
- At the same time, **NEET should continue for all-India quota seats, AIIMS, JIPMER, deemed universities, and management quota seats of private medical colleges.**
साथ ही, अखिल भारतीय कोटा सीटों, एम्स, जिपमर, डीम्ड विश्वविद्यालयों और निजी चिकित्सा महाविद्यालयों की प्रबंधन कोटा सीटों के लिए नीट जारी रहना चाहिए।
- **For these seats, admissions cannot be made on the basis of Plus Two marks or any State government exam because, for these seats, students from all over the country, as well as NRIs, overseas citizens of India and foreign nationals can also apply.**
इन सीटों के लिए प्रवेश केवल प्लस टू अंकों या किसी राज्य सरकार की परीक्षा के आधार पर नहीं किया जा सकता, क्योंकि इन सीटों के लिए पूरे देश के विद्यार्थियों के साथ-साथ एनआरआई, भारत के विदेशी नागरिक तथा विदेशी नागरिक भी आवेदन कर सकते हैं।

After the 2024 NEET paper leak controversy, the K. Radhakrishnan Committee identified major security lapses, including **poor CCTV monitoring and excessive reliance on contractual staff within the NTA.**

2024 नीट प्रश्नपत्र लीक विवाद के बाद, के. राधाकृष्णन समिति ने प्रमुख सुरक्षा खामियों की पहचान की, जिनमें कमजोर सीसीटीवी निगरानी और एनटीए के भीतर संविदा कर्मचारियों पर अत्यधिक निर्भरता शामिल थी।

Why has the government not fully implemented the Committee's recommendations?
सरकार ने समिति की सिफारिशों को पूर्ण रूप से लागू क्यों नहीं किया?

- **BS:** The NTA did not implement most of the important recommendations of the **Radhakrishnan Committee.**
बीएस: एनटीए ने राधाकृष्णन समिति की अधिकांश महत्वपूर्ण सिफारिशों को लागू नहीं किया।
- The **Committee's recommendations can be categorised into three types: improving NTA's capacity, strengthening security measures such as CCTV surveillance and safer paper transport, and most importantly, reducing the high-stakes nature of NEET itself.**
समिति की सिफारिशों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है: एनटीए की क्षमता में सुधार, सीसीटीवी निगरानी और सुरक्षित प्रश्नपत्र परिवहन जैसे सुरक्षा उपायों को मजबूत करना, तथा सबसे महत्वपूर्ण, स्वयं नीट की अत्यधिक दबावपूर्ण प्रकृति को कम करना।
- The **third category is particularly important, but nothing was done about it.**
तीसरी श्रेणी विशेष रूप से महत्वपूर्ण थी, लेकिन इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई।
- The **most important recommendation was to conduct NEET in two stages.**
सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश नीट को दो चरणों में आयोजित करने की थी।
- The **first stage, the prelims, can select five lakh students out of the 22 lakhs and these five lakh students can then write the main NEET exam which will be used for medical college admission.**
पहला चरण, अर्थात् प्रारंभिक परीक्षा, 22 लाख विद्यार्थियों में से पाँच लाख विद्यार्थियों का चयन कर सकता है और ये पाँच लाख विद्यार्थी मुख्य नीट परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं, जिसका उपयोग चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए किया जाएगा।



- This will dramatically reduce paper leaks.
इससे प्रश्नपत्र लीक की घटनाओं में उल्लेखनीय कमी आएगी।
- The second major recommendation was to limit the number of attempts.
दूसरी प्रमुख सिफारिश प्रयासों की संख्या सीमित करने की थी।
- This will reduce the number of repeaters who in their desperation are often ready to pay large amounts for leaked papers.
इससे पुनः परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों की संख्या कम होगी, जो निराशा में अक्सर लीक प्रश्नपत्रों के लिए बड़ी धनराशि देने को तैयार रहते हैं।
- To ensure equity, two more attempts can be allowed for SC/ST and BPL (Below Poverty Line) students.
समानता सुनिश्चित करने के लिए एससी/एसटी तथा बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) वर्ग के विद्यार्थियों को दो अतिरिक्त प्रयास दिए जा सकते हैं।
- The NTA did not implement any of these recommendations.
एनटीए ने इनमें से किसी भी सिफारिश को लागू नहीं किया।
- GRR: Among the several suggestions of the Committee, one of the most important was a computer based test which was never implemented.
जीआरआर: समिति के अनेक सुझावों में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण सुझाव कंप्यूटर आधारित परीक्षा का था, जिसे कभी लागू नहीं किया गया।
- Also, that coaching centres across India should be registered, regulated and that fees should be fixed.
इसके अतिरिक्त, पूरे भारत में कोचिंग केंद्रों का पंजीकरण और विनियमन किया जाना चाहिए तथा उनकी फीस निर्धारित की जानी चाहिए।

GS Paper III: Economy		22 May 2026
TOPICS COVERED		
22M	Should the rupee be left to depreciate? क्या रुपये को अवमूल्यित होने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए?	
22M	RBI revived intervention strategy to arrest rupee fall, say bankers रुपये में गिरावट रोकने के लिए RBI ने फिर अपनाई हस्तक्षेप रणनीति, बैंकरों का दावा	



Should the rupee be left to depreciate?

Following days of sustained losses, the rupee has closed at nearly ₹97 to the dollar, while some advocate letting it find its own level, there is a risk in allowing depreciation to continue unchecked, especially as rising import costs of essential goods could fuel inflation

ISSUE: Economy

EXPLAINER

Rahul Menon

Continuous days of sustained losses has seen the rupee close at almost ₹97 to the dollar, with no indication that the slide has been arrested. Rising oil prices and the threat of external inflation will put further pressure on the rupee in the days to come. This has prompted calls for intervention to prevent further falls.

Some writers, like Harvard professor Gita Gopinath, have resisted calls for intervention by the RBI, advocating for letting the rupee find its own level. A weaker rupee would automatically curtail imports and boost exports. Intervention would only obstruct the free flow of market forces.

While intervention does have its challenges, there is danger in letting the process of depreciation continue unabated, especially when much of it is being driven by speculative finance. With foreign interest rates bound to rise, capital will flow out faster, leading to stronger negative pressures on the rupee. In such a scenario, it might take inordinately long for the rupee to 'find its level', and the inflationary dangers of a weak rupee will exert even more stresses on a populace already exposed to hardship as a result of worldwide spikes in energy prices.

Can intervention deepen volatility?
A current account deficit implies more imports than exports, and hence a greater need for foreign currency. If this is adequately met by foreign capital inflow to purchase assets like stocks, the rupee's value relative to the dollar will not change.

If the economy experiences a deficit without sufficient inflow of foreign capital, it faces a problem, with demand for foreign exchange exceeding available supply. Mainstream models dictate that in such a situation, the rupee must depreciate. The weaker rupee makes



GETTY IMAGES

exports more affordable and imports more expensive, leading to an automatic adjustment of the current account deficit relative to the available inflow of foreign capital.

In such a scenario, intervening to artificially prop up the value of the rupee only delays the inevitable. It inhibits adjustment by ensuring import demand does not fall, because the rupee has not depreciated enough to naturally shut off higher import demand, the cause of the widening deficit in the first place.

What is the difference between a weak rupee and a falling rupee?
Arguments for non-intervention, however, conflate a falling rupee with a weak rupee. A fall in the rupee value would not automatically increase export demand if the market expects a further fall. Exports might be higher when the rupee is weak, but may not rise when the rupee is falling if foreign buyers expect the price to fall even further and for goods to become cheaper at a later date.

At the same time, if the economy imports essential goods like oil, demand may not automatically reduce sufficiently

as the rupee falls. If people expect the rupee to fall further, and for the prices to rise even more tomorrow, they may front-load purchases today and increase import demand in the short run. This can be seen in the rush to buy petrol when prices were raised, as consumers expected further increases in the future.

A falling rupee would see higher import values, but no necessary increase in exports, ensuring that the deficit is not curtailed. The very problem that required a depreciation might just perpetuate itself. One might argue that exports would pick up and imports reduce when the process eventually works itself out. But the adjustment process is rarely painless. Rising import values of essential goods will lead to rising inflation in the domestic economy that has already experienced reverse migration and real wage squeezes.

What is the role of capital flows?
For the sake of argument, one can posit an equilibrium value of the rupee driven by fundamental values, such as export and import demands that exhibits uniform and predictable behaviour as the rupee changes value. The process may be

long, but the economy might eventually settle at this value, driven by fundamental changes in the current account. However, this assumption neglects the role of speculative foreign capital.

Much of the fall in the rupee has been driven by speculative outflows of foreign institutional investment that, for whatever reason, does not see Indian assets as being sufficiently remunerative. Perhaps investors think returns on Indian stocks will not be high in the future, that growth is not sustainable, or that interest rates will rise in developed country markets. Whatever the reason, these speculative expectations of foreign investors can lead to capital outflow and depreciation, necessitating current account adjustments based on the sentiments of foreign investors.

In such a situation, the 'actual' value of the rupee is determined not by consumption demand but by speculation. There are no fundamentals or technical values underpinning the pure speculation of financial markets. With indications that foreign Central Banks may soon raise interest rates, the rupee could come under further pressure.

Intervention is one amongst many policies that must be considered, and one that even developed economies have resorted to. As the yen slid against the dollar in April this year, Japanese Finance Minister Satsuki Katayama signalled that the government would take 'decisive action' in financial markets to maintain the yen.

Intervention to stem speculative capital flows is extremely hard to manage, and can lead to negative outcomes if the force of speculation is too great, or if governments do not - or cannot - show enough commitment in markets. However, we must not assume that the rupee can find an equilibrium value soon, for its fall is being driven by speculation rather than any fundamental economic behaviour. It is time to have a serious conversation regarding the role and place of foreign capital in India's growth story. (Rahul Menon is associate professor at O.P. Jindal Global University.)

THE GIST

▼ If the economy experiences a current account deficit without sufficient inflow of foreign capital, it faces a problem, with demand for foreign exchange exceeding available supply.

▼ Much of the rupee's decline has been driven by speculative outflows of foreign institutional investment. These speculative expectations can lead to capital outflow and depreciation, necessitating current account adjustments driven by market sentiment.

22M. Should the rupee be left to depreciate?

क्या रुपये को अवमूल्यित होने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए?

- Following days of sustained losses, the rupee has closed at nearly ₹97 to the dollar; while some advocate letting it and its own level, there is a risk in allowing depreciation to continue unchecked, especially as rising import costs of essential goods could fuel inflation. लगातार कई दिनों की गिरावट के बाद रुपया लगभग 97 रुपये प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ है; यद्यपि कुछ लोग इसे अपने स्वाभाविक स्तर तक पहुँचने देने की वकालत करते हैं, किन्तु अवमूल्यन को अनियंत्रित रूप से जारी रहने देना जोखिमपूर्ण हो सकता है, विशेषकर तब जब आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती आयात लागत मुद्रास्फीति को बढ़ावा दे सकती है।
- Continuous days of sustained losses has seen the rupee close at almost ₹97 to the dollar, with no indication that the slide has been arrested. लगातार कई दिनों की गिरावट के कारण रुपया लगभग ₹97 प्रति डॉलर पर बंद हुआ है, और इस गिरावट के रुकने का कोई संकेत नहीं दिखाई दे रहा है।
- Rising oil prices and the threat of external inflation will put further pressure on the rupee in the days to come. बढ़ती तेल कीमतें और बाहरी मुद्रास्फीति का खतरा आने वाले दिनों में रुपये पर और अधिक दबाव डालेगा।
- This has prompted calls for intervention to prevent further falls. इस स्थिति ने आगे की गिरावट को रोकने के लिए हस्तक्षेप की मांग को जन्म दिया है।
- Some writers, like Harvard professor Gita Gopinath, have resisted calls for intervention by the RBI, advocating for letting the rupee find its own level. कुछ विद्वानों, जैसे हार्वर्ड प्रोफेसर गीता गोपीनाथ, ने आरबीआई द्वारा हस्तक्षेप की मांग का विरोध करते हुए रुपये को अपने स्तर तक स्वयं पहुँचने देने का समर्थन किया है।
- A weaker rupee would automatically curtail imports and boost exports. कमजोर रुपया स्वाभाविक रूप से आयात को कम करेगा और निर्यात को बढ़ावा देगा।



- Intervention would only obstruct the free flow of market forces.
हस्तक्षेप केवल बाजार शक्तियों के स्वतंत्र प्रवाह में बाधा उत्पन्न करेगा।
- While intervention does have its challenges, there is danger in letting the process of depreciation continue unabated, especially when much of it is being driven by speculative finance.
यद्यपि हस्तक्षेप की अपनी चुनौतियाँ हैं, फिर भी अवमूल्यन की प्रक्रिया को बिना रोक-टोक जारी रहने देना खतरनाक हो सकता है, विशेषकर तब जब इसका बड़ा हिस्सा सट्टात्मक वित्त द्वारा प्रेरित हो।
- With foreign interest rates bound to rise, capital will flow out faster, leading to stronger negative pressures on the rupee.
विदेशी ब्याज दरों में वृद्धि के साथ पूंजी का बहिर्गमन तेज होगा, जिससे रुपये पर और अधिक नकारात्मक दबाव पड़ेगा।
- In such a scenario, it might take inordinately long for the rupee to 'find its level', and the inflationary dangers of a weak rupee will exert even more stresses on a populace already exposed to hardship as a result of worldwide spikes in energy prices.
ऐसी स्थिति में रुपये को अपना 'संतुलित स्तर' प्राप्त करने में अत्यधिक समय लग सकता है, और कमजोर रुपये से उत्पन्न मुद्रास्फीति का खतरा उन लोगों पर और अधिक दबाव डालेगा जो पहले से ही वैश्विक ऊर्जा कीमतों में वृद्धि के कारण कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं।

Can intervention deepen volatility?

क्या हस्तक्षेप अस्थिरता को बढ़ा सकता है?

- A current account deficit implies more imports than exports, and hence a greater need for foreign currency.
चालू खाते का घाटा यह दर्शाता है कि आयात निर्यात से अधिक है, और इसलिए विदेशी मुद्रा की आवश्यकता भी अधिक होती है।
- If this is adequately met by foreign capital inflow to purchase assets like stocks, the rupee's value relative to the dollar will not change.
यदि इस आवश्यकता को शेरों जैसी परिसंपत्तियों की खरीद के लिए विदेशी पूंजी प्रवाह द्वारा पर्याप्त रूप से पूरा कर दिया जाए, तो डॉलर के मुकाबले रुपये का मूल्य नहीं बदलेगा।
- If the economy experiences a deficit without sufficient inflow of foreign capital, it faces a problem, with demand for foreign exchange exceeding available supply.
यदि अर्थव्यवस्था विदेशी पूंजी के पर्याप्त प्रवाह के बिना घाटे का सामना करती है, तो विदेशी मुद्रा की मांग उपलब्ध आपूर्ति से अधिक हो जाती है और समस्या उत्पन्न होती है।
- Mainstream models dictate that in such a situation, the rupee must depreciate.
मुख्यधारा के आर्थिक मॉडल बताते हैं कि ऐसी स्थिति में रुपये का अवमूल्यन होना चाहिए।
- The weaker rupee makes exports more affordable and imports more expensive, leading to an automatic adjustment of the current account deficit relative to the available inflow of foreign capital.
कमजोर रुपया निर्यात को अधिक सस्ता और आयात को अधिक महंगा बनाता है, जिससे उपलब्ध विदेशी पूंजी प्रवाह के अनुरूप चालू खाते के घाटे का स्वचालित समायोजन होता है।
- In such a scenario, intervening to artificially prop up the value of the rupee only delays the inevitable.
ऐसी स्थिति में कृत्रिम रूप से रुपये के मूल्य को बनाए रखने के लिए हस्तक्षेप करना केवल अपरिहार्य स्थिति को टालता है।
- It inhibits adjustment by ensuring import demand does not fall, because the rupee has not depreciated enough to naturally shut off higher import demand, the cause of the widening deficit in the first place.
यह समायोजन की प्रक्रिया को बाधित करता है क्योंकि आयात की मांग कम नहीं होती, चूँकि रुपया इतना



अवमूल्यित नहीं हुआ होता कि बढ़ती आयात मांग को स्वाभाविक रूप से कम कर सके, जो मूलतः बढ़ते घाटे का कारण है।

What is the difference between a weak rupee and a falling rupee?

कमजोर रुपये और गिरते हुए रुपये में क्या अंतर है?

- Arguments for non-intervention, however, conflate a falling rupee with a weak rupee. हालाँकि, गैर-हस्तक्षेप के पक्ष में दिए गए तर्क गिरते हुए रुपये और कमजोर रुपये को एक समान मान लेते हैं।
- A fall in the rupee value would not automatically increase export demand if the market expects a further fall. यदि बाजार को रुपये में और गिरावट की आशंका हो, तो रुपये के मूल्य में गिरावट स्वतः निर्यात मांग नहीं बढ़ाएगी।
- Exports might be higher when the rupee is weak, but may not rise when the rupee is falling if foreign buyers expect the price to fall even further and for goods to become cheaper at a later date. रुपया कमजोर होने पर निर्यात बढ़ सकता है, लेकिन यदि विदेशी खरीदारों को कीमतों में और गिरावट की उम्मीद हो तथा वस्तुएँ भविष्य में और सस्ती होने की संभावना हो, तो गिरते हुए रुपये की स्थिति में निर्यात नहीं बढ़ेगा।
- At the same time, if the economy imports essential goods like oil, demand may not automatically reduce sufficiently as the rupee falls. साथ ही, यदि अर्थव्यवस्था तेल जैसी आवश्यक वस्तुओं का आयात करती है, तो रुपये के गिरने पर भी मांग स्वतः पर्याप्त रूप से कम नहीं होगी।
- If people expect the rupee to fall further, and for the prices to rise even more tomorrow, they may front-load purchases today and increase import demand in the short run. यदि लोगों को यह उम्मीद हो कि रुपया और गिरेगा तथा कीमतें भविष्य में और बढ़ेंगी, तो वे आज ही अधिक खरीदारी कर सकते हैं और अल्पकाल में आयात मांग बढ़ सकती है।
- This can be seen in the rush to buy petrol when prices were raised, as consumers expected further increases in the future. यह स्थिति पेट्रोल की कीमतें बढ़ने पर खरीदारी की होड़ में देखी जा सकती है, क्योंकि उपभोक्ताओं को भविष्य में और अधिक मूल्य वृद्धि की आशंका होती है।
- A falling rupee would see higher import values, but no necessary increase in exports, ensuring that the deficit is not curtailed. गिरते हुए रुपये के कारण आयात मूल्य बढ़ेंगे, लेकिन निर्यात में आवश्यक रूप से वृद्धि नहीं होगी, जिससे घाटा कम नहीं होगा।
- The very problem that required a depreciation might just perpetuate itself. जिस समस्या के कारण अवमूल्यन आवश्यक हुआ था, वही समस्या स्वयं को लगातार बनाए रख सकती है।
- One might argue that exports would pick up and imports reduce when the process eventually works itself out. कोई यह तर्क दे सकता है कि अंततः प्रक्रिया के संतुलित होने पर निर्यात बढ़ेंगे और आयात घटेंगे।
- But the adjustment process is rarely painless. लेकिन समायोजन की प्रक्रिया शायद ही कभी बिना कठिनाई के होती है।
- Rising import values of essential goods will lead to rising inflation in the domestic economy that has already experienced reverse migration and real wage squeezes. आवश्यक वस्तुओं के आयात मूल्य में वृद्धि घरेलू अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति बढ़ाएगी, जो पहले से ही विपरीत प्रवासन और वास्तविक मजदूरी में कमी का अनुभव कर चुकी है।

What is the role of capital flows?

पूंजी प्रवाह की क्या भूमिका है?



- For the sake of argument, one can posit an equilibrium value of the **rupee** driven by fundamental values, such as export and import demands that exhibits uniform and predictable behaviour as the rupee changes value.
तर्क की दृष्टि से यह माना जा सकता है कि **रुपये** का एक संतुलित मूल्य होता है, जो निर्यात और आयात की मांग जैसे मूलभूत कारकों द्वारा निर्धारित होता है तथा रुपये के मूल्य में परिवर्तन के साथ समान और पूर्वानुमान योग्य व्यवहार प्रदर्शित करता है।
- The process may be long, but the economy might eventually settle at this value, driven by fundamental changes in the current account.
यह प्रक्रिया लंबी हो सकती है, लेकिन अंततः चालू खाते में होने वाले मूलभूत परिवर्तनों के कारण अर्थव्यवस्था इस संतुलित मूल्य पर स्थिर हो सकती है।
- However, this assumption neglects the role of speculative foreign capital.
हालाँकि, यह मान्यता सट्टात्मक विदेशी पूंजी की भूमिका की उपेक्षा करती है।
- **Much of the fall in the rupee has been driven by speculative outflows of foreign institutional investment that, for whatever reason, does not see Indian assets as being sufficiently remunerative.**
रुपये में आई अधिकांश गिरावट **विदेशी संस्थागत निवेश** के सट्टात्मक बहिर्गमन के कारण हुई है, जो किसी भी कारण से भारतीय परिसंपत्तियों को पर्याप्त लाभदायक नहीं मानता।
- **Perhaps investors think returns on Indian stocks will not be high in the future, that growth is not sustainable, or that interest rates will rise in developed country markets.**
संभवतः निवेशकों को लगता है कि भविष्य में भारतीय शेयरों पर प्रतिफल अधिक नहीं होगा, विकास टिकाऊ नहीं है, अथवा विकसित देशों के बाजारों में ब्याज दरें बढ़ेंगी।
- Whatever the reason, these speculative expectations of foreign investors can lead to capital outflow and depreciation, necessitating current account adjustments based on the sentiments of foreign investors.
कारण चाहे जो भी हो, विदेशी निवेशकों की ये सट्टात्मक अपेक्षाएँ पूंजी बहिर्गमन और अवमूल्यन को जन्म दे सकती हैं, जिससे विदेशी निवेशकों की भावनाओं के आधार पर चालू खाते में समायोजन आवश्यक हो जाता है।
- In such a situation, the 'actual' value of the rupee is determined not by consumption demand but by speculation.
ऐसी स्थिति में रुपये का 'वास्तविक' मूल्य उपभोग मांग से नहीं, बल्कि सट्टेबाजी से निर्धारित होता है।
- There are no fundamentals or technical values underpinning the pure speculation of financial markets.
वित्तीय बाजारों की शुद्ध सट्टेबाजी के पीछे कोई मूलभूत या तकनीकी मूल्य नहीं होते।
- With indications that foreign **Central Banks** may soon raise interest rates, the rupee could come under further pressure.
यह संकेत मिल रहे हैं कि विदेशी **केंद्रीय बैंक** शीघ्र ही ब्याज दरें बढ़ा सकते हैं, जिससे रुपये पर और अधिक दबाव पड़ सकता है।
- Intervention is one amongst many policies that must be considered, and one that even developed economies have resorted to.
हस्तक्षेप उन अनेक नीतियों में से एक है जिन पर विचार किया जाना चाहिए, और यह ऐसी नीति है जिसका सहारा विकसित अर्थव्यवस्थाओं ने भी लिया है।
- As the **yen** slid against the dollar in **April this year**, Japanese **Finance Minister Satsuki Katayama** signalled that the government would take 'decisive action' in financial markets to maintain the yen.
जब **इस वर्ष अप्रैल** में **येन** डॉलर के मुकाबले कमजोर हुआ, तब जापान की **वित्त मंत्री सात्सुकी कटायामा** ने संकेत दिया कि सरकार येन को स्थिर बनाए रखने के लिए वित्तीय बाजारों में 'निर्णायक कार्रवाई' करेगी।
- Intervention to stem speculative capital flows is extremely hard to manage, and can lead to negative outcomes if the force of speculation is too great, or if governments do not — or cannot — show enough commitment in markets.
सट्टात्मक पूंजी प्रवाह को रोकने के लिए हस्तक्षेप का प्रबंधन अत्यंत कठिन होता है, और यदि सट्टेबाजी की



शक्ति अत्यधिक हो या सरकारें बाजारों में पर्याप्त प्रतिबद्धता न दिखा सकें — या न दिखा पाएँ — तो इसके नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं।

- However, we must not assume that the rupee can find an equilibrium value soon, for its fall is being driven by speculation rather than any fundamental economic behaviour. हालाँकि, हमें यह मानकर नहीं चलना चाहिए कि रुपया शीघ्र ही संतुलित मूल्य प्राप्त कर लेगा, क्योंकि इसकी गिरावट किसी मूलभूत आर्थिक व्यवहार के बजाय सट्टेबाजी से प्रेरित है।
- It is time to have a serious conversation regarding the role and place of foreign capital in India's growth story. अब समय आ गया है कि भारत की विकास यात्रा में विदेशी पूंजी की भूमिका और स्थान पर गंभीर चर्चा की जाए।

RBI revived intervention strategy to arrest rupee fall, say bankers

GS III: Economy

Reuters
MUMBAI

The Reserve Bank of India (RBI) reverted to its familiar intervention strategy on Thursday, deploying heavy dollar sales via state-run banks before market open to halt a persistent slide in the rupee after a string of all-time lows, bankers said.

The rupee surged on the

interbank order matching system to near 96 against the U.S. dollar following heavy intervention, with the currency rallying by about 70 paise within minutes. It opened at 96.30 in the onshore spot market, up 0.5% on the day.

The central bank's pre-open intervention mirrored past episodes where it has acted aggressively to break a negative feedback

loop of persistent depreciation and mounting pressure on the rupee.

The currency fell to within a whisker of 97 on Wednesday. The RBI last deployed this strategy in March and has, at times, intervened heavily either before market open or shortly after. The rupee rebounded 50 paise to settle at 96.36 against the U.S. dollar on Thursday

22M. RBI revived intervention strategy to arrest rupee fall, say bankers रुपये में गिरावट रोकने के लिए RBI ने फिर अपनाई हस्तक्षेप रणनीति, बैंकों का दावा

- The Reserve Bank of India (RBI) reverted to its familiar intervention strategy on Thursday, **deploying heavy dollar sales via state-run banks** before the market open to halt a persistent slide in the rupee after a string of all-time lows, bankers said. भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने गुरुवार को अपनी परिचित हस्तक्षेप रणनीति को फिर अपनाया और बाजार खुलने से पहले सरकारी बैंकों के माध्यम से भारी मात्रा में डॉलर की बिक्री की, ताकि लगातार रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुँच रहे रुपये की गिरावट को रोका जा सके, ऐसा बैंकों ने कहा।
- The rupee surged on the interbank order matching system to near 96 against the U.S. dollar following heavy intervention, with the currency rallying by about 70 paise within minutes. भारी हस्तक्षेप के बाद अंतरबैंक ऑर्डर मैचिंग प्रणाली में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले लगभग 96 के स्तर तक मजबूत हो गया, और कुछ ही मिनटों में मुद्रा लगभग 70 पैसे उछल गई।
- It opened at 96.30 in the onshore spot market, up 0.5% on the day. ऑनशोर स्पॉट मार्केट में यह 96.30 पर खुला, जो दिनभर में 0.5% की बढ़त थी।
- The central bank's pre-open intervention mirrored past episodes where it has acted aggressively to break a negative feedback loop of persistent depreciation and mounting pressure on the rupee.



केंद्रीय बैंक का बाजार-पूर्व हस्तक्षेप उन पूर्व घटनाओं जैसा था, जब उसने रुपये में लगातार गिरावट और बढ़ते दबाव के नकारात्मक चक्र को तोड़ने के लिए आक्रामक कदम उठाए थे।

- The currency fell to within a whisker of 97 on Wednesday. बुधवार को मुद्रा लगभग 97 के स्तर तक पहुँच गई थी।
- The RBI last deployed this strategy in March and has, at times, intervened heavily either before market open or shortly after. RBI ने आखिरी बार मार्च में इस रणनीति का उपयोग किया था और कई बार बाजार खुलने से पहले या तुरंत बाद भारी हस्तक्षेप किया है।
- The rupee rebounded 50 paise to settle at 96.36 against the U.S. dollar on Thursday. गुरुवार को रुपया 50 पैसे मजबूत होकर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 96.36 पर बंद हुआ।

GS Paper III: Science and Technology		22 May 2026
TOPICS COVERED		
22M	Ebola crisis: India-Africa summit postponed इबोला संकट: भारत-अफ्रीका शिखर सम्मेलन स्थगित	
22M	Experts clarify the link between screen time, autism विशेषज्ञों ने स्क्रीन टाइम और ऑटिज़्म के बीच संबंध को स्पष्ट किया	
22M	How does the Gaganyaan's life-support system operate? गगनयान की जीवन-समर्थन प्रणाली कैसे कार्य करती है?	

Ebola crisis: India-Africa summit postponed

Decision taken after consultations regarding 'the emerging public health situation on the continent'

New dates for summit, its associated meetings will be communicated in due course, says MEA

Last such summit was held in 2015; it had also been delayed by one year due to Ebola outbreak

GS III: SCIENCE AND TECHNOLOGY
Kallol Bhattacharjee
NEW DELHI

The Ebola public health emergency in Africa cast its shadow on India's diplomatic calendar on Thursday, with the Ministry of External Affairs and the African Union announcing the postponement of the India-Africa Forum Summit-IV that was scheduled to take place here on May 28 to 31.

In a joint statement, the MEA and the AU hinted at the Ebola crisis, saying that the decision was taken in view of the "evolving health situation in parts of Africa". The last such summit was held over a decade ago, and had also been postponed by a year due to an Ebola outbreak.

Consultations were held between the Indian go-

vernment and the Chairperson of the African Union and the African Union Commission regarding the "emerging public health situation on the continent", the MEA and the AU said in their statement.

"Following these consultations, the two sides agreed that it would be advisable to convene the Fourth India-Africa Forum Summit at a later date," they added.

There were several other Africa-related events to be hosted by the Indian Council of World Affairs and the Indian Council for Cultural Relations that have been cancelled, though some African delegates have arrived in New Delhi.

New dates for the Summit and its associated meetings "will be finalised through mutual consulta-



Health concern: India has pledged to help governments of African nations to deal with the Ebola crisis. AP

tions and communicated in due course," the MEA said. The cancellation of the summit is being viewed as a setback to India-Africa ties, though officials insisted that the decision was taken in the best interest of all stakeholders.

India expressed "solidarity with the peoples and Governments of Africa" and pledged to help them in dealing with the crisis with an "Africa-led" approach.

Earlier, the African Union had called for "collec-

Big cat meet in capital also put on hold

NEW DELHI
In the wake of concerns over the Ebola virus, India has postponed the International Big Cat Alliance (IBCA) Summit that was scheduled in New Delhi on June 1. The First IBCA Summit was scheduled in conjunction with the Fourth India-Africa Forum Summit as several African countries host big cats.

tive international solidarity and cooperation" to deal with the outbreak of Ebola virus that affected multiple countries including Democratic Republic of Congo (DRC) and Uganda.

Responding to queries from *The Hindu* earlier this

week, a spokesperson for Mahmoud Ali Youssouf, the Chairperson of the African Union Commission, had said the fourth India-Africa Forum Summit would provide an opportunity to work on "future pandemics" and response mechanism.

'Collective cooperation'

"While the Ebola outbreak is affecting a number of African countries, it is important to underscore that pandemics and public health emergencies respect no borders and require collective international solidarity and cooperation," the spokesperson, Nuur Mohamad Sheekh, said in an email response to *The Hindu* on Monday. That came a day after the World Health Organization declared that the Ebola outbreak in the

DRC and Uganda was "a Public Health Emergency of International Concern (PHEIC)".

Mr. Youssouf had earlier expressed deep concern about the Ebola virus disease, vowing that Africa would "overcome" this latest public health challenge through "unity, coordination and collective action."

The fourth India-Africa Forum Summit was planned to be held between May 28 and 31, after a gap of nearly 11 years. Indian officials have blamed the COVID-19 pandemic for the long gap since the last such summit was held in 2015.

Former Indian Ambassador to Ethiopia, Gurjit Singh, expressed confidence that the summit would be held once the latest health emergency stabilises in Africa.

22M. Ebola crisis: India-Africa summit postponed

इबोला संकट: भारत-अफ्रीका शिखर सम्मेलन स्थगित

- Decision taken after consultations regarding 'the emerging public health situation on the continent'. महाद्वीप में उभरती सार्वजनिक स्वास्थ्य स्थिति को लेकर परामर्श के बाद निर्णय लिया गया।
- New dates for summit, its associated meetings will be communicated in due course, says MEA.



MEA ने कहा कि शिखर सम्मेलन तथा उससे संबंधित बैठकों की नई तिथियों की सूचना उचित समय पर दी जाएगी।

- **Last such summit was held in 2015**; it had also been delayed by one year due to **Ebola outbreak**.
ऐसा पिछला शिखर सम्मेलन वर्ष 2015 में आयोजित हुआ था; उसे भी **इबोला प्रकोप** के कारण एक वर्ष के लिए स्थगित किया गया था।
- The **Ebola** public health emergency in Africa cast its shadow on India's diplomatic calendar on Thursday, with the Ministry of External Affairs and the **African Union** announcing the postponement of the **India-Africa Forum Summit-IV** that was scheduled to take place here on **May 28 to 31**.
अफ्रीका में **इबोला** सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल का प्रभाव गुरुवार को भारत के कूटनीतिक कार्यक्रम पर पड़ा, जब विदेश मंत्रालय और **अफ्रीकी संघ** ने 28 से 31 मई तक यहां आयोजित होने वाले **भारत-अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन-IV** को स्थगित करने की घोषणा की।
- In a joint statement, the **MEA** and the **AU** hinted at the Ebola crisis, saying that the decision was taken in view of the "evolving health situation in parts of Africa".
संयुक्त वक्तव्य में **MEA** और **AU** ने इबोला संकट की ओर संकेत करते हुए कहा कि यह निर्णय अफ्रीका के कुछ हिस्सों में "विकसित होती स्वास्थ्य स्थिति" को देखते हुए लिया गया।
- The **last such summit was held over a decade ago, and had also been postponed by a year due to an Ebola outbreak**.
ऐसा पिछला शिखर सम्मेलन एक दशक से अधिक पहले आयोजित हुआ था और उसे भी **इबोला प्रकोप** के कारण एक वर्ष के लिए स्थगित किया गया था।
- Consultations were held between the Indian government and the Chairperson of the **African Union** and the **African Union Commission** regarding the "emerging public health situation on the continent", the **MEA** and the **AU** said in their statement.
MEA और **AU** ने अपने वक्तव्य में कहा कि "महाद्वीप में उभरती सार्वजनिक स्वास्थ्य स्थिति" को लेकर भारत सरकार तथा **अफ्रीकी संघ** और **अफ्रीकी संघ आयोग** के अध्यक्ष के बीच परामर्श किया गया।
- "Following these consultations, the two sides agreed that it would be advisable to convene the Fourth **India-Africa Forum Summit** at a later date," they added.
उन्होंने आगे कहा, "इन परामर्शों के बाद दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि चौथा **भारत-अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन** बाद की तिथि में आयोजित करना उचित होगा।"
- There were several other Africa-related events to be hosted by the **Indian Council of World Affairs** and the **Indian Council for Cultural Relations** that have been cancelled, though some African delegates have arrived in New Delhi.
इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स और **इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस** द्वारा आयोजित किए जाने वाले अफ्रीका-संबंधी कई अन्य कार्यक्रम भी रद्द कर दिए गए हैं, हालांकि कुछ अफ्रीकी प्रतिनिधि नई दिल्ली पहुंच चुके हैं।
- New dates for the Summit and its associated meetings "will be finalised through mutual consultations and communicated in due course," the **MEA** said.
MEA ने कहा कि शिखर सम्मेलन और उससे संबंधित बैठकों की नई तिथियां "पारस्परिक परामर्श के माध्यम से तय की जाएंगी और उचित समय पर सूचित की जाएंगी।"
- The cancellation of the summit is being viewed as a setback to **India-Africa ties**, though officials insisted that the decision was taken in the best interest of all stakeholders.
इस शिखर सम्मेलन के रद्द होने को **भारत-अफ्रीका संबंधों** के लिए एक झटका माना जा रहा है, हालांकि अधिकारियों ने कहा कि यह निर्णय सभी हितधारकों के सर्वोत्तम हित में लिया गया है।
- India expressed "solidarity with the peoples and Governments of Africa" and pledged to help them in dealing with the crisis with an "Africa-led" approach.
भारत ने "अफ्रीका की जनता और सरकारों के साथ एकजुटता" व्यक्त की तथा "अफ्रीका-नेतृत्व" वाले दृष्टिकोण के साथ संकट से निपटने में सहायता का वचन दिया।



- Earlier, the **African Union** had called for “collective international solidarity and cooperation” to deal with the outbreak of **Ebola virus** that affected multiple countries including **Democratic Republic of Congo (DRC)** and **Uganda**.

इससे पहले **अफ्रीकी संघ** ने **इबोला वायरस** के प्रकोप से निपटने के लिए “सामूहिक अंतरराष्ट्रीय एकजुटता और सहयोग” का आह्वान किया था, जिसने **कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (DRC)** और **युगांडा** सहित कई देशों को प्रभावित किया।

- Responding to queries from **The Hindu** earlier this week, a spokesperson for **Mahmoud Ali Youssouf**, the Chairperson of the **African Union Commission**, had said the fourth **India-Africa Forum Summit** would provide an opportunity to work on “future pandemics” and response mechanism.

इस सप्ताह पहले **द हिन्दू** के प्रश्नों का उत्तर देते हुए **अफ्रीकी संघ आयोग** के अध्यक्ष **महमूद अली यूसुफ** के प्रवक्ता ने कहा था कि चौथा **भारत-अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन** “भविष्य की महामारियों” और प्रतिक्रिया तंत्र पर कार्य करने का अवसर प्रदान करेगा।

‘Collective cooperation’

‘सामूहिक सहयोग’

- “While the Ebola outbreak is affecting a number of African countries, it is important to underscore that pandemics and public health emergencies respect no borders and require collective international solidarity and cooperation,” the spokesperson, **Nuur Mohamud Sheekh**, said in an email response to **The Hindu** on Monday.

प्रवक्ता **नूर मोहामुद शेख** ने सोमवार को **द हिन्दू** को ईमेल उत्तर में कहा, “यद्यपि इबोला प्रकोप कई अफ्रीकी देशों को प्रभावित कर रहा है, यह रेखांकित करना महत्वपूर्ण है कि महामारियां और सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियां सीमाओं का सम्मान नहीं करतीं तथा सामूहिक अंतरराष्ट्रीय एकजुटता और सहयोग की आवश्यकता होती है।”

- That came a day after the **World Health Organization** declared that the Ebola outbreak in the **DRC** and **Uganda** was “a Public Health Emergency of International Concern (PHEIC)”. यह बयान उस घोषणा के एक दिन बाद आया, जिसमें **विश्व स्वास्थ्य संगठन** ने **DRC** और **युगांडा** में इबोला प्रकोप को “अंतरराष्ट्रीय चिंता की सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति (PHEIC)” घोषित किया था।

- Mr. Youssouf had earlier expressed deep concern about the **Ebola virus disease**, vowing that Africa would “overcome” this latest public health challenge through “unity, coordination and collective action.”

श्री यूसुफ ने इससे पहले **इबोला वायरस रोग** को लेकर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा था कि अफ्रीका “एकता, समन्वय और सामूहिक कार्रवाई” के माध्यम से इस नवीनतम सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती पर “विजय प्राप्त करेगा।”

- The fourth **India-Africa Forum Summit** was planned to be held between May 28 and 31, after a gap of nearly 11 years.

चौथा **भारत-अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन** लगभग 11 वर्षों के अंतराल के बाद 28 से 31 मई के बीच आयोजित होने वाला था।

- Indian officials have blamed the **COVID-19 pandemic** for the long gap since the last such summit was held in 2015.

भारतीय अधिकारियों ने वर्ष 2015 में आयोजित पिछले शिखर सम्मेलन के बाद आए लंबे अंतराल के लिए **COVID-19 महामारी** को जिम्मेदार ठहराया है।

- Former Indian Ambassador to **Ethiopia**, **Gurjit Singh**, expressed confidence that the summit would be held once the latest health emergency stabilises in Africa.

इथियोपिया में भारत के पूर्व राजदूत **गुरजीत सिंह** ने विश्वास व्यक्त किया कि अफ्रीका में वर्तमान स्वास्थ्य आपात स्थिति स्थिर होने के बाद यह शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा।



Experts clarify the link between screen time, autism

CS III S&T
Amitra Iyssa Johnson

Autism spectrum disorder (ASD) is increasingly being discussed on social media, often alongside claims linking excessive screen time to autism in children. However, neurologists and developmental experts say the science is far more complex.

Sheffali Gulati, paediatric neurologist and former professor at the All India Institute of Medical Sciences (AIIMS), said autism cannot be reduced to one trigger alone. "Autism is still an enigma. There are strong genetic influences, environmental factors and epigenetic mechanisms all interacting together," she said.

Multiple causes

Experts say autism begins very early in brain development and has a strong hereditary basis. Dr. Gulati noted that studies show concordance rates of 60% to 90% in identical twins, indicating a major genetic contribution. Autism is also associated with several genetic conditions including Fragile X syndrome, Down syndrome, tuberous sclerosis and neurofibromatosis.



Checking in: Autism is a complex, lifelong neurodevelopmental condition primarily rooted in genetics and prenatal brain development. FILE PHOTO

She added that environmental associations being studied include air pollution, pesticide exposure, parental age and certain medications taken during pregnancy. "Screen time is being studied as one environmental factor among many. It should not be sensationalised as the sole cause," she said. Chakkeri Priyanka, consultant neurologist, Kauvery Hospital, said current scientific evidence does not support the claim that screens directly cause autism. "What studies have shown is association, not causation,"

she said. "Children who already have early traits of autism may naturally prefer screens because they are repetitive, predictable and less socially demanding."

She explained that parents of children with developmental concerns may also rely more on screens for calming or regulation, creating what researchers call "reverse causality," where increased screen use may actually be a consequence rather than the cause of developmental differences.

Abhinayaa J., consultant in Developmental Paediatrics at Apollo Children's Hospitals, say excessive screen exposure can still affect children's development, especially during the first few years of life when the brain undergoes rapid growth. "The first thousand days of life are extremely important for brain development," Dr. Gulati said. "This is when neural networks are forming and synapses are being strengthened and pruned."

Recent research has shown children living with autism began using screens earlier than neurotypical children, with significantly higher problematic media-use scores. However, experts stress that these behavioural effects are different from autism itself.

Experts also cautioned parents against extreme reactions such as suddenly eliminating all screen exposure overnight. They said screen habits should instead be reduced gradually while increasing human interaction, play and communication, especially at a time when technology is increasingly being integrated into healthcare, education and developmental therapies for children. (athira.elssa@thehindu.co.in)

22M. Experts clarify the link between screen time, autism

विशेषज्ञों ने स्क्रीन टाइम और ऑटिज़्म के बीच संबंध को स्पष्ट किया

- **Autism spectrum disorder (ASD)** is increasingly being discussed on social media, often alongside claims linking excessive screen time to autism in children. ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर (एसडी) पर सोशल मीडिया में लगातार चर्चा बढ़ रही है, जहाँ अक्सर अत्यधिक स्क्रीन समय को बच्चों में ऑटिज़्म से जोड़ने वाले दावे किए जाते हैं।
- However, neurologists and developmental experts say the science is far more complex. हालाँकि, न्यूरोलॉजिस्ट और विकास विशेषज्ञों का कहना है कि इसका वैज्ञानिक पक्ष कहीं अधिक जटिल है।
- **Sheffali Gulati**, paediatric neurologist and former professor at the **All India Institute of Medical Sciences (AIIMS)**, said autism cannot be reduced to one trigger alone. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की पूर्व प्रोफेसर एवं बाल तंत्रिका रोग विशेषज्ञ शेफाली गुलाटी ने कहा कि ऑटिज़्म को केवल एक कारण तक सीमित नहीं किया जा सकता।
- "Autism is still an enigma. There are strong genetic influences, environmental factors and epigenetic mechanisms all interacting together," she said. उन्होंने कहा, "ऑटिज़्म अब भी एक रहस्य बना हुआ है। इसमें मजबूत आनुवंशिक प्रभाव, पर्यावरणीय कारक और एपिजेनेटिक तंत्र सभी मिलकर कार्य करते हैं।"

Multiple causes

अनेक कारण

- Experts say **autism begins very early in brain development and has a strong hereditary basis**. विशेषज्ञों का कहना है कि ऑटिज़्म मस्तिष्क के विकास के प्रारंभिक चरण में ही शुरू हो जाता है और इसका आनुवंशिक आधार अत्यंत मजबूत होता है।
- Dr. Gulati noted that studies show **concordance rates of 60% to 90% in identical twins, indicating a major genetic contribution**. डॉ. गुलाटी ने बताया कि अध्ययनों में समान जुड़वाँ बच्चों में 60% से 90% तक समानता दर पाई गई है, जो एक बड़े आनुवंशिक योगदान का संकेत देती है।



- Autism is also associated with several genetic conditions including **Fragile X syndrome, Down syndrome, tuberous sclerosis and neurofibromatosis.**
ऑटिज्म कई आनुवंशिक स्थितियों से भी जुड़ा हुआ है, जिनमें फ्रैजाइल एक्स सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, ट्यूबरस स्कलेरोसिस और न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस शामिल हैं।
- She added that **environmental associations being studied include air pollution, pesticide exposure, parental age and certain medications taken during pregnancy.**
उन्होंने आगे कहा कि जिन पर्यावरणीय कारकों का अध्ययन किया जा रहा है उनमें वायु प्रदूषण, कीटनाशकों का संपर्क, माता-पिता की आयु तथा गर्भावस्था के दौरान ली गई कुछ दवाएँ शामिल हैं।
- **“Screen time is being studied as one environmental factor among many. It should not be sensationalised as the sole cause,”** she said.
उन्होंने कहा, “स्क्रीन समय का अध्ययन अनेक पर्यावरणीय कारकों में से एक के रूप में किया जा रहा है। इसे एकमात्र कारण के रूप में सनसनीखेज नहीं बनाया जाना चाहिए।”
- **Chakkeria Priyanka**, consultant neurologist, **Kauvery Hospital**, said current scientific evidence does not support the claim that screens directly cause autism.
कावेरी अस्पताल की सलाहकार न्यूरोलॉजिस्ट **चक्केरा प्रियंका** ने कहा कि वर्तमान वैज्ञानिक प्रमाण इस दावे का समर्थन नहीं करते कि स्क्रीन सीधे ऑटिज्म का कारण बनती हैं।
- **“What studies have shown is association, not causation,”** she said.
उन्होंने कहा, “अध्ययनों में केवल संबंध दिखाई दिया है, प्रत्यक्ष कारण नहीं।”
- **“Children who already have early traits of autism may naturally prefer screens because they are repetitive, predictable and less socially demanding.”**
“जिन बच्चों में पहले से ऑटिज्म के प्रारंभिक लक्षण होते हैं, वे स्वाभाविक रूप से स्क्रीन को अधिक पसंद कर सकते हैं क्योंकि वे दोहरावपूर्ण, पूर्वानुमेय और सामाजिक रूप से कम चुनौतीपूर्ण होती हैं।”
- She explained that **parents of children with developmental concerns may also rely more on screens for calming or regulation, creating what researchers call “reverse causality,” where increased screen use may actually be a consequence rather than the cause of developmental differences.**
उन्होंने स्पष्ट किया कि विकास संबंधी समस्याओं वाले बच्चों के माता-पिता बच्चों को शांत रखने या नियंत्रित करने के लिए स्क्रीन का अधिक उपयोग कर सकते हैं, जिससे शोधकर्ताओं द्वारा “रिवर्स कॉज़ैलिटी” कही जाने वाली स्थिति उत्पन्न होती है, जहाँ बढ़ा हुआ स्क्रीन उपयोग वास्तव में विकासात्मक भिन्नताओं का परिणाम हो सकता है, न कि कारण।
- **Abhinayaa J.**, consultant in **Developmental Paediatrics** at **Apollo Children’s Hospitals**, say **excessive screen exposure can still affect children’s development, especially during the first few years of life when the brain undergoes rapid growth.**
अपोलो चिल्ड्रन्स हॉस्पिटल्स में **विकासात्मक बाल रोग विशेषज्ञ अभिनया जे.** का कहना है कि अत्यधिक स्क्रीन संपर्क बच्चों के विकास को प्रभावित कर सकता है, विशेषकर जीवन के शुरुआती वर्षों में जब मस्तिष्क तीव्र गति से विकसित हो रहा होता है।
- **“The first thousand days of life are extremely important for brain development,”** Dr. Gulati said.
डॉ. गुलाटी ने कहा, “जीवन के पहले एक हजार दिन मस्तिष्क के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं।”
- **“This is when neural networks are forming and synapses are being strengthened and pruned.”**
“इसी अवधि में न्यूरोल नेटवर्क बनते हैं तथा सिनेप्स मजबूत और व्यवस्थित किए जाते हैं।”
- Recent research has shown children living with autism began using screens earlier than neurotypical children, with significantly higher problematic media-use scores.
हालिया शोध में पाया गया है कि ऑटिज्म से प्रभावित बच्चों ने सामान्य बच्चों की तुलना में कम आयु में स्क्रीन का उपयोग शुरू किया तथा उनमें समस्याग्रस्त मीडिया उपयोग के अंक उल्लेखनीय रूप से अधिक थे।
- However, experts stress that these behavioural effects are different from autism itself.
हालाँकि, विशेषज्ञ इस बात पर जोर देते हैं कि ये व्यवहारिक प्रभाव स्वयं ऑटिज्म से भिन्न हैं।
- Experts also cautioned parents against extreme reactions such as suddenly eliminating all screen exposure overnight.



विशेषज्ञों ने माता-पिता को अचानक एक ही रात में बच्चों का पूरा स्क्रीन संपर्क समाप्त कर देने जैसी अत्यधिक प्रतिक्रियाओं से भी सावधान रहने की सलाह दी।

- They said screen habits should instead be reduced gradually while increasing human interaction, play and communication, especially at a time when technology is increasingly being integrated into healthcare, education and developmental therapies for children. उन्होंने कहा कि स्क्रीन की आदतों को धीरे-धीरे कम किया जाना चाहिए, जबकि मानवीय संवाद, खेल और संचार को बढ़ाया जाना चाहिए, विशेष रूप से ऐसे समय में जब प्रौद्योगिकी को बच्चों की स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और विकासात्मक उपचारों में तेजी से शामिल किया जा रहा है।

How does the Gaganyaan's life-support system operate?

What are the systems designed to support astronauts aboard the spacecraft while in orbit?

ES:MS&T
Unnikrishnan Nair S.

The Environmental Control and Life Support System (ECLSS) replicates the earth's atmosphere in earth orbit by managing air, water, temperature, and waste. In short-term space missions, all supplies are carried from the earth and waste is stored for disposal later. Long-duration missions recycle the waste back into useful resources like breathable air and clean water.

What is air revitalisation?

Carbon dioxide is removed from the earth's atmosphere by photosynthesis and by dissolving in the oceans. In Gaganyaan (the Indian Space Research Organisation mission to place a small crew of Indian astronauts in a 400 km orbit around the earth), astronauts' exhalation will increase the cabin's

carbon dioxide content and has to be artificially removed. Elevated levels of carbon dioxide can lead to hypercapnia, causing symptoms such as headaches, dizziness, and impaired cognitive function.

A healthy adult normally exhales around 1 kg of carbon dioxide per day, though this amount increases significantly with physical exertion. The air revitalisation system (ARS) provides fresh air, removes carbon dioxide, and filters trace contaminants or odours that would otherwise accumulate in the cabin. For short missions, oxygen is supplied from high-pressure gas bottles. According to standards, a healthy crew member needs 0.84 kg of oxygen per day to support metabolic functions.

Carbon dioxide is removed using lithium hydroxide canisters. Each canister has activated charcoal that absorbs any odours in the cabin air. A spent canister is

replaced by the crew with a fresh one typically every 20-24 hours. In a microgravity environment lacking natural convection, small fans in the ECLSS are the circulatory system that prevents lethal carbon dioxide and hazardous oxygen pockets from lingering.

How are pressure, temperature and humidity controlled?

The Gaganyaan crew module is designed to maintain a comfortable environment with a temperature of 20-26°C and relative humidity between 30% and 70% to ensure crew comfort and equipment safety. The moisture released through the crews' breath and sweat are the main sources of humidity in the cabin.

Low humidity in the crew cabin can lead to dry skin, irritated eyes, and higher risk of static electricity discharge that could damage electronics. High humidity promotes microbial growth and causes

condensation that may lead to short-circuits or corrosion.

Heat in the crew module is primarily generated by the metabolic body heat of the astronauts (100 to 150 W per crew) and continuously operating onboard electronics and avionics. An active cooling system is used to regulate temperature. Heat is removed by circulating the air through heat exchangers, which will expel the heat into space. The humidity is managed by condensing units that collect water to prevent fogging and short-circuits.

The pressure is held at 101.3 kPa. To mimic the earth's sea-level conditions, the pressure control system uses electronic sensors and safety valves to balance the air and oxygen levels.

Where does water come from?

The primary challenge in space is water doesn't 'pour' but forms floating globules that can cause short-circuits in electronics or pose a hazard if inhaled accidentally. So water must be mechanically forced from storage using pressurised bladders to avoid gas-liquid mixing.

In Gaganyaan, the crew relies on supply of potable water stored in specially designed pouches. They can be pressed to force water directly into the mouth.

How is waste managed?

In microgravity, liquid and solid waste do

not 'fall', requiring suction-based airflow systems to pull waste away from the body and prevent it from floating around. These systems must also separate and stabilise waste to avoid microbial contamination and the buildup of toxic gases like ammonia.

In Gaganyaan, specialised faecal collection bags will be used and urine will be sucked through funnels. All waste will be chemically treated to neutralise odours and inhibit bacterial growth, then stored in sealed containers for disposal after return.

How are fires suppressed?

The lack of gravity allows fires to expand into a sphere that is harder to reach with traditional suppressants. In Gaganyaan, smoke detectors will sound an alarm to alert the crew. Fire extinguishers that create fine water mists can be used to put the fire out. A water mist effectively cools the fire and also scrubs toxic smoke particles.

Russia's Soyuz has the option to depressurise the cabin as a last resort to extinguish the fire after the crew has worn a pressure suit.

(Unnikrishnan Nair S. is Former Director, VSSC and IIST; Founding Director, HSFC; and an expert in launch vehicle systems, orbital re-entry and human spaceflight technologies. He is currently working as Dr Sarabhai Professor at VSSC)

22M. How does the Gaganyaan's life-support system operate?

गगनयान की जीवन-समर्थन प्रणाली कैसे कार्य करती है?

- What are the systems designed to support **astronauts aboard the spacecraft** while in **orbit**? वे कौन-सी प्रणालियाँ हैं जिन्हें **अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष यान के भीतर कक्षा में रहते समय सहायता प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है?**
- The **Environmental Control and Life Support System (ECLSS)** replicates the earth's atmosphere in earth orbit by managing air, water, temperature, and waste. **पर्यावरण नियंत्रण एवं जीवन समर्थन प्रणाली (ईसीएलएसएस)** वायु, जल, तापमान और अपशिष्ट का प्रबंधन करके पृथ्वी की कक्षा में पृथ्वी के वातावरण की प्रतिकृति तैयार करती है।
- In short-term space missions, all supplies are carried from the earth and waste is stored for disposal later. **अल्पकालिक अंतरिक्ष अभियानों में सभी आवश्यक सामग्री पृथ्वी से ले जाई जाती है और अपशिष्ट को बाद में निस्तारण के लिए संग्रहीत किया जाता है।**
- Long-duration missions recycle the waste back into useful resources like breathable air and clean water. **दीर्घकालिक अभियानों में अपशिष्ट को पुनर्चक्रित करके श्वसन योग्य वायु और स्वच्छ जल जैसे उपयोगी संसाधनों में परिवर्तित किया जाता है।**

What is air revitalisation?

वायु पुनर्जीवन क्या है?



- Carbon dioxide is removed from the earth's atmosphere by photosynthesis and by dissolving in the oceans.
कार्बन डाइऑक्साइड को पृथ्वी के वातावरण से प्रकाश संश्लेषण तथा महासागरों में घुलने की प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है।
- **In Gaganyaan (the Indian Space Research Organisation mission to place a small crew of Indian astronauts in a 400 km orbit around the earth), astronauts' exhalation will increase the cabin's carbon dioxide content and has to be artificially removed.**
गगनयान (भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मिशन, जिसका उद्देश्य भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों के एक छोटे दल को पृथ्वी की **400 किलोमीटर कक्षा** में स्थापित करना है) में अंतरिक्ष यात्रियों के श्वसन से केबिन में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, जिसे कृत्रिम रूप से हटाना आवश्यक होगा।
- **Elevated levels of carbon dioxide can lead to hypercapnia, causing symptoms such as headaches, dizziness, and impaired cognitive function.**
कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ स्तर **हाइपरकैपनिया** उत्पन्न कर सकता है, जिससे सिरदर्द, चक्कर आना और संज्ञानात्मक कार्यक्षमता में कमी जैसे लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं।
- A healthy adult normally exhales around **1 kg** of carbon dioxide per day, though this amount increases significantly with physical exertion.
एक स्वस्थ वयस्क सामान्यतः प्रतिदिन लगभग **1 किलोग्राम** कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है, यद्यपि शारीरिक परिश्रम के साथ यह मात्रा काफी बढ़ जाती है।
- The **air revitalisation system (ARS)** provides fresh air, removes carbon dioxide, and filters trace contaminants or odours that would otherwise accumulate in the cabin.
वायु पुनर्जीवन प्रणाली (एआरएस) ताजी वायु उपलब्ध कराती है, कार्बन डाइऑक्साइड को हटाती है तथा उन सूक्ष्म प्रदूषकों और दुर्गंधों को फिल्टर करती है जो अन्यथा केबिन में जमा हो जातीं।
- **For short missions, oxygen is supplied from high-pressure gas bottles.**
अल्पकालिक अभियानों के लिए ऑक्सीजन उच्च-दाब गैस सिलेंडरों से उपलब्ध कराई जाती है।
- According to standards, a healthy crew member needs **0.84 kg of oxygen per day** to support metabolic functions.
मानकों के अनुसार, एक स्वस्थ चालक दल सदस्य को चयापचयी क्रियाओं के लिए प्रतिदिन **0.84 किलोग्राम ऑक्सीजन** की आवश्यकता होती है।
- **Carbon dioxide is removed using lithium hydroxide canisters.**
कार्बन डाइऑक्साइड को **लिथियम हाइड्रॉक्साइड कैनिस्टर्स** की सहायता से हटाया जाता है।
- **Each canister has activated charcoal that absorbs any odours in the cabin air.**
प्रत्येक कैनिस्टर में सक्रिय चारकोल होता है, जो केबिन की वायु में उपस्थित दुर्गंध को अवशोषित करता है।
- A spent canister is replaced by the crew with a fresh one typically every **20-24 hours**.
प्रयुक्त कैनिस्टर को चालक दल सामान्यतः प्रत्येक **20-24 घंटे** में नए कैनिस्टर से बदलता है।
- **In a microgravity environment lacking natural convection, small fans in the ECLSS are the circulatory system that prevents lethal carbon dioxide and hazardous oxygen pockets from lingering.**
प्राकृतिक संवहन से रहित सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण वातावरण में, ईसीएलएसएस के छोटे पंखे परिसंचरण प्रणाली के रूप में कार्य करते हैं, जो घातक कार्बन डाइऑक्साइड और खतरनाक ऑक्सीजन क्षेत्रों को बने रहने से रोकते हैं।

How are pressure, temperature and humidity controlled?

दाब, तापमान और आर्द्रता को कैसे नियंत्रित किया जाता है?

- The **Gaganyaan crew module** is designed to maintain a comfortable environment with a temperature of **20-26°C** and relative humidity between **30% and 70%** to ensure crew comfort and equipment safety.
गगनयान क्रू मॉड्यूल को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि वह **20-26°C** तापमान और **30% से 70%** के बीच सापेक्षिक आर्द्रता बनाए रखे, ताकि चालक दल की सुविधा और उपकरणों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।



- The moisture released through the crews' breath and sweat are the main sources of humidity in the cabin.
चालक दल की श्वास और पसीने से निकलने वाली नमी केबिन में आर्द्रता के मुख्य स्रोत हैं।
- Low humidity in the crew cabin can lead to dry skin, irritated eyes, and higher risk of static electricity discharge that could damage electronics.
कू केबिन में कम आर्द्रता के कारण त्वचा शुष्क हो सकती है, आँखों में जलन हो सकती है तथा स्थैतिक विद्युत निर्वहन का जोखिम बढ़ सकता है, जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को क्षति पहुँचा सकता है।
- High humidity promotes microbial growth and causes condensation that may lead to short-circuits or corrosion.
अधिक आर्द्रता सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को बढ़ावा देती है और संघनन उत्पन्न करती है, जिससे शॉर्ट-सर्किट या क्षरण हो सकता है।
- Heat in the crew module is primarily generated by the metabolic body heat of the astronauts (100 to 150 W per crew) and continuously operating onboard electronics and avionics.
कू मॉड्यूल में ऊष्मा मुख्यतः अंतरिक्ष यात्रियों की चयापचयी शारीरिक ऊष्मा (प्रत्येक सदस्य के लिए 100 से 150 वाट) तथा लगातार कार्यरत ऑनबोर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स और एवियोनिक्स से उत्पन्न होती है।
- An active cooling system is used to regulate temperature.
तापमान को नियंत्रित करने के लिए सक्रिय शीतलन प्रणाली का उपयोग किया जाता है।
- Heat is removed by circulating the air through heat exchangers, which will expel the heat into space.
ऊष्मा को हीट एक्सचेंजर्स के माध्यम से वायु परिसंचरण द्वारा हटाया जाता है, जो ऊष्मा को अंतरिक्ष में बाहर निकाल देते हैं।
- The humidity is managed by condensing units that collect water to prevent fogging and short-circuits.
आर्द्रता का प्रबंधन संघनन इकाइयों द्वारा किया जाता है, जो धुंध और शॉर्ट-सर्किट को रोकने के लिए जल एकत्रित करती हैं।
- The pressure is held at 101.3 kPa.
दाब को 101.3 किलोपास्कल पर बनाए रखा जाता है।
- To mimic the earth's sea-level conditions, the pressure control system uses electronic sensors and safety valves to balance the air and oxygen levels.
पृथ्वी के समुद्र-तल जैसी परिस्थितियों की प्रतिकृति तैयार करने के लिए दाब नियंत्रण प्रणाली इलेक्ट्रॉनिक सेंसर और सुरक्षा वाल्वों का उपयोग कर वायु और ऑक्सीजन स्तर को संतुलित करती है।

Where does water come from?

जल कहाँ से प्राप्त होता है?

- The primary challenge in space is water doesn't 'pour' but forms floating globules that can cause short-circuits in electronics or pose a hazard if inhaled accidentally.
अंतरिक्ष में मुख्य चुनौती यह है कि जल सामान्य रूप से 'बहता' नहीं है, बल्कि तैरते हुए गोलाकार कणों का रूप ले लेता है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स में शॉर्ट-सर्किट उत्पन्न कर सकते हैं या गलती से श्वास के साथ भीतर जाने पर खतरा बन सकते हैं।
- So water must be mechanically forced from storage using pressurised bladders to avoid gas-liquid mixing.
इसलिए गैस और द्रव के मिश्रण से बचने हेतु जल को दाबयुक्त थैलियों की सहायता से यांत्रिक रूप से संग्रहण से बाहर निकाला जाता है।
- In Gaganyaan, the crew relies on supply of potable water stored in specially designed pouches.
गगनयान में चालक दल विशेष रूप से डिजाइन किए गए पाउचों में संग्रहित पेयजल की आपूर्ति पर निर्भर करेगा।



- They can be pressed to force water directly into the mouth.
इन पाउचों को दबाकर जल को सीधे मुँह में पहुँचाया जा सकता है।

How is waste managed?

अपशिष्ट का प्रबंधन कैसे किया जाता है?

- In microgravity, liquid and solid waste do not “fall”, requiring suction-based airflow systems to pull waste away from the body and prevent it from floating around.
सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में द्रव और ठोस अपशिष्ट नीचे नहीं गिरते, इसलिए अपशिष्ट को शरीर से दूर खींचने और उसे तैरने से रोकने के लिए सक्शन आधारित वायु प्रवाह प्रणालियों की आवश्यकता होती है।
- These systems must also separate and stabilise waste to avoid microbial contamination and the buildup of toxic gases like ammonia.
इन प्रणालियों को अपशिष्ट को अलग और स्थिर भी करना होता है, ताकि सूक्ष्मजीवी संक्रमण और अमोनिया जैसी विषैली गैसों के संचय से बचा जा सके।
- In **Gaganyaan**, specialised faecal collection bags will be used and urine will be sucked through funnels.
गगनयान में विशेष मल-संग्रह बैगों का उपयोग किया जाएगा और मूत्र को फ़नलों के माध्यम से खींचा जाएगा।
- All waste will be chemically treated to neutralise odours and inhibit bacterial growth, then stored in sealed containers for disposal after return.
सभी अपशिष्टों का रासायनिक उपचार किया जाएगा ताकि दुर्गंध को निष्क्रिय किया जा सके और जीवाणु वृद्धि को रोका जा सके, इसके बाद उन्हें वापसी तक सीलबंद कंटेनरों में संग्रहीत किया जाएगा।

How are fires suppressed?

आग को कैसे नियंत्रित किया जाता है?

- The lack of gravity allows fires to expand into a sphere that is harder to reach with traditional suppressants.
गुरुत्वाकर्षण के अभाव में आग गोलाकार रूप में फैल जाती है, जिसे पारंपरिक अग्निशामक उपायों से नियंत्रित करना अधिक कठिन होता है।
- In **Gaganyaan**, smoke detectors will sound an alarm to alert the crew.
गगनयान में धुआँ संवेदक चालक दल को सतर्क करने के लिए अलार्म बजाएँगे।
- Fire extinguishers that create fine water mists can be used to put the fire out.
सूक्ष्म जल-कुहासा उत्पन्न करने वाले अग्निशामकों का उपयोग आग बुझाने के लिए किया जा सकता है।
- A water mist effectively cools the fire and also scrubs toxic smoke particles.
जल-कुहासा प्रभावी रूप से आग को ठंडा करता है और विषैले धुएँ के कणों को भी हटाता है।
- **Russia's Soyuz** has the option to depressurise the cabin as a last resort to extinguish the fire after the crew has worn a pressure suit.
रूस के सोयूज यान में अंतिम उपाय के रूप में चालक दल द्वारा दाब सूट पहन लेने के बाद केबिन का दाब कम कर आग बुझाने का विकल्प उपलब्ध है।

GS Paper III: Environment		22 May 2026
TOPICS COVERED		
22M	India skips vote on UN climate resolution	
	भारत ने संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रस्ताव पर मतदान से दूरी बनाई	



India skips vote on UN climate resolution

GS III: Environment
 Press Trust of India
 UNITED NATIONS

India abstained from voting on a United Nations General Assembly (UNGA) resolution calling on countries to comply with their obligations on climate change, voicing concern that the draft “undermines” the “sacrosanct architecture” of the United Nations Framework Convention on Climate Change.

The resolution was adopted in the 193-member General Assembly on Wednesday with 141 votes in favour, eight against, and 28 abstentions. India said it had engaged constructively in negotiations, clarifying its concerns and positions.

“We are therefore disappointed that our concerns were not addressed, despite our best efforts to find common ground,” it said.

In the Explanation of Vote, First Secretary in India’s Permanent Mission to the United Nations, Petal Gahlot, said adoption of the resolution by the General Assembly does not create binding commitments for India.

The resolution welcomed the July 2025 unanimous advisory opinion of the International Court of Justice on States’ obligations on climate change.

22M. India skips vote on UN climate resolution

भारत ने संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रस्ताव पर मतदान से दूरी बनाई

• India abstained from voting on a **United Nations General Assembly (UNGA)** resolution calling on countries to comply with their obligations on **climate change**, voicing concern that the draft “undermines” the “sacrosanct architecture” of the **United Nations Framework Convention on Climate Change**.

भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के उस प्रस्ताव पर मतदान से दूरी बनाई, जिसमें देशों से जलवायु परिवर्तन संबंधी अपने दायित्वों का पालन करने का आह्वान किया गया था, और यह चिंता व्यक्त की कि यह मसौदा संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा अभिसमय की “पवित्र संरचना” को “कमज़ोर” करता है।

• The resolution was adopted in the **193-member General Assembly** on Wednesday with **141 votes** in favour, eight against, and **28 abstentions**.

यह प्रस्ताव बुधवार को **193 सदस्यीय महासभा** में **141 मतों** के समर्थन, आठ विरोध और **28 अनुपस्थित मतों** के साथ पारित किया गया।

• India said it had engaged constructively in negotiations, clarifying its concerns and positions.

भारत ने कहा कि उसने वार्ताओं में रचनात्मक रूप से भाग लिया और अपनी चिंताओं तथा रुख को स्पष्ट किया।

• “We are therefore disappointed that our concerns were not addressed, despite our best efforts to find common ground,” it said.

उसने कहा, “इसलिए हमें निराशा है कि समान आधार खोजने के हमारे सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद हमारी चिंताओं का समाधान नहीं किया गया।”

• In the **Explanation of Vote**, First Secretary in India’s Permanent Mission to the **United Nations**, **Petal Gahlot**, said **adoption of the resolution by the General Assembly does not create binding commitments for India**.

मत स्पष्टीकरण में, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की प्रथम सचिव **पेटल गहलोत** ने कहा कि महासभा द्वारा प्रस्ताव को अपनाने से भारत पर कोई बाध्यकारी दायित्व उत्पन्न नहीं होते।

• The **resolution welcomed the July 2025 unanimous advisory opinion of the International Court of Justice on States’ obligations on climate change**.

इस प्रस्ताव में **जुलाई 2025** में **अंतरराष्ट्रीय न्यायालय** द्वारा जलवायु परिवर्तन पर राज्यों के दायित्वों संबंधी दिए गए सर्वसम्मति परामर्शात्मक मत का स्वागत किया गया।

GS Paper III: Internal Security		22 May 2026
TOPICS COVERED		
22M	27 Maoists surrender in Jharkhand under Operation Navjeevan ऑपरेशन नवजीवन के तहत झारखंड में 27 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया	
22M	Regulation, not bans, can protect online gamers प्रतिबंध नहीं, बल्कि विनियमन ऑनलाइन गेम खेलने वालों की सुरक्षा कर सकता है	



27 Maoists surrender in Jharkhand under Operation Navjeevan

GS III: Internal Security

PATNA

A group of 27 Maoists surrendered before the Jharkhand police on Thursday, as part of Operation Navjeevan. The group includes commanders and strike squads of the banned Communist Party of India (Maoist), active in the Kolhan and Saranda regions, as well as two leaders of the Jharkhand Jan Mukti Parishad active in Gumla district, said the police.

The Jharkhand police, along with its anti-Naxal unit Jharkhand Jaguar and the COBRA unit of the Central Reserve Police Force, is conducting operations against the Maoists, under the Jharkhand government's surrender and rehabilitation Policy.

The Maoists surrendered their arms before the Jharkhand Director General of Police Tadasha

Mishra and other senior police officials at an event in Ranchi.

Those who surrendered included JJMP sub-zonal commanders Sagen Aangariya alias Dokol, wanted in 123 cases, and Sachin Beg, wanted in six cases and carrying a reward of ₹5 lakh. Last year on May 24, JJMP supremo Pappu Lohra alias Suryadev Lohra was killed on May 24 last year, during an exchange of fire with security forces in the Ichabar forest of Latehar district.

The 25 Maoists comprised six sub-zonal committee members, six area committee members and 13 squad members.

As per Jharkhand police data available with the Jharkhand police, 44 Naxalites have been arrested so far in 2026, while 29 have surrendered before the police, and 22 have been killed in police operations.

Jharkhand Director General of Police Tadasha Mishra and other senior police officials at an event in Ranchi.

माओवादियों ने रांची में आयोजित एक कार्यक्रम में झारखंड पुलिस महानिदेशक तदाशा मिश्रा तथा अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के समक्ष अपने हथियार डाल दिए।

- Those who surrendered included JJMP sub-zonal commanders **Sagen Aangariya alias Dokol**, wanted in **123 cases**, and **Sachin Beg**, wanted in six cases and carrying a reward of **₹5 lakh**.

आत्मसमर्पण करने वालों में JJMP के सब-जोनल कमांडर सागेन आंगरिया उर्फ डोकोल, जो 123 मामलों में वांछित था, तथा सचिन बेग, जो छह मामलों में वांछित था और जिस पर ₹5 लाख का इनाम घोषित था, शामिल हैं।

- Last year on May 24, JJMP supremo **Pappu Lohra alias Suryadev Lohra** was killed on May 24 last year, during an exchange of fire with security forces in the **Ichabar forest of Latehar district**.

पिछले वर्ष 24 मई को JJMP प्रमुख पप्पू लोहरा उर्फ सूर्यदेव लोहरा की लातेहार जिले के इचाबर जंगल में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ के दौरान मृत्यु हो गई थी।

- The **25 Maoists** comprised six sub-zonal committee members, six area committee members and 13 squad members.

इन 25 माओवादियों में छह सब-जोनल समिति सदस्य, छह एरिया समिति सदस्य तथा 13 स्क्वाड सदस्य शामिल थे।

22M. 27 Maoists surrender in Jharkhand under Operation Navjeevan

ऑपरेशन नवजीवन के तहत झारखंड में 27 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया

- A group of **27 Maoists** surrendered before the **Jharkhand police** on Thursday, as part of **Operation Navjeevan**.

27 माओवादियों के एक समूह ने गुरुवार को ऑपरेशन नवजीवन के तहत झारखंड पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया।

- The group includes commanders and strike squads of the banned **Communist Party of India (Maoist)**, active in the **Kolhan** and **Saranda** regions, as well as two leaders of the **Jharkhand Jan Mukti Parishad** active in **Gumla district**, said the police.

पुलिस के अनुसार, इस समूह में प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के कमांडर और स्ट्राइक स्क्वाड शामिल हैं, जो कोल्हान और सारंडा क्षेत्रों में सक्रिय थे, साथ ही गुमला जिले में सक्रिय झारखंड जन मुक्ति परिषद के दो नेता भी शामिल हैं।

- The **Jharkhand police**, along with its anti-Naxal unit **Jharkhand Jaguar** and the **COBRA unit of the Central Reserve Police Force**, is conducting operations against the Maoists, under the Jharkhand government's surrender and rehabilitation Policy.

झारखंड पुलिस, अपनी एंटी-नक्सल इकाई झारखंड जगुआर तथा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की कोबरा इकाई के साथ मिलकर, झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति के तहत माओवादियों के विरुद्ध अभियान चला रही है।

- The Maoists surrendered their arms before the



- As per **Jharkhand police** data available with the Jharkhand police, **44 Naxalites** have been arrested so far in 2026, while **29** have surrendered before the police, and **22** have been killed in police operations.

झारखंड पुलिस के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2026 में अब तक **44 नक्सलियों** को गिरफ्तार किया गया है, जबकि **29** ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है और **22** पुलिस अभियानों में मारे गए हैं।

Regulation, not bans, can protect online gamers

GS III: Internal Security

MOJ

The Promotion and Regulation of Online Gaming Act, 2025, was passed with the objective to "protect individuals, especially youth and vulnerable populations, from the adverse social, economic, psychological and privacy-related impacts" of online games involving money. As growing evidence of their impact emerges, it is becoming increasingly clear that the Act is proving counterproductive. Early studies suggest that the use of offshore online betting and gambling platforms has risen since the ban. Following the implementation of the PROG Act in October 2025, users quickly shifted from regulated domestic websites to illegal offshore platforms.

Rise in offshore platform use

An even more worrying consequence is that these platforms not only circumvent domestic laws but may also become channels for money laundering and terror financing. Several reports and surveys conducted after the ban suggest that offshore platform usage has risen sharply. A study by CUTS International found a significant increase in offshore participation after the implementation of the PROG Act – from 68.3% to 82% in Delhi NCR, 67.8% to 83% in Tamil Nadu, and 66.7% to 91.7% in Maharashtra.

In Tamil Nadu, 67.8% of users reported using offshore platforms before the ban, often alongside domestic real-money gaming platforms. After the ban, this rose to 83%, involving the use of offshore platforms, marking an increase of 15.2 percentage points. This increase reflects a net behavioural shift of 15.2% toward offshore platforms, driven by a larger number of respondents starting offshore use after implementation of the PROG Act than those discontinuing it.

This is not a new phenomenon. Across industries, paternalistic bans rarely change consumer behaviour; they merely push users toward underground and more volatile channels.



Karti P. Chidambaram

Member of Parliament, Congress party, (Sivaganga), Tamil Nadu

The implementation of the Promotion and Regulation of Online Gaming Act, 2025, is proving counterproductive

Products which are not physical in nature face an even deeper challenge, as users can quickly shift through VPNs and private links, making effective regulation and consumer protection far more difficult.

A case for strong regulation

In the recently concluded Budget parliamentary session, the Ministry of Electronics and Information Technology reported to the Lok Sabha that the Centre had blocked 8,376 URLs to combat the financial irregularities and cybercrime havoc being caused by illegal offshore betting networks. Despite this, media reports continue to allude to suicides linked to illegal online betting traps even after the ban. It is therefore crucial to recognise the scale of the problem and reconsider whether strong regulation may be more effective than an outright ban.

Illegal operators use technologically advanced evasion tactics, including virtual private networks (VPN), proxy servers and encrypted platforms such as WhatsApp and Telegram, to ensure seamless access and transactions. By the time authorities block one domain, users are often shifted to mirror sites with little disruption. The widespread use of VPNs also masks user locations, weakening geographic restrictions.

When users shift to offshore platforms, domestic authorities face significant limitations in ensuring consumer protection and grievance redress. The easy accessibility of offshore online gambling platforms to Indian users is therefore a serious public concern.

A recent inter-State online gambling and fraud racket that came to light in my constituency in Tamil Nadu – Sivaganga – in February this year involved a fraudulent "Old Coin Purchase Task" promoted on Telegram, in which the accused lured victims into investing money in fake old-coin bidding schemes by promising high returns. They also procured "mule accounts" by

persuading villagers in Sivaganga, Paramakudi and Kalayarkovil to open bank accounts in exchange for small payments, which were then used to divert the proceeds of the crime.

Examples from overseas

Looking at other jurisdictions offers useful perspectives on responding to the rise of offshore platforms. The United Arab Emirates, despite its long-standing prohibition, moved in 2023 to establish a tightly controlled federal licensing framework with strict compliance requirements, deposit limits and harm-prevention safeguards, partly to address the risks posed by unregulated offshore activity. Sri Lanka is now moving in a similar direction, with a centralised Gambling Regulatory Authority expected to become operational by June 2026 to consolidate oversight and bring offshore online activity within a clear domestic framework.

The emerging lesson is that the real policy choice is rarely between permitting and banning. It is between creating a regulated domestic framework with accountability and consumer safeguards, or allowing the space to be dominated by offshore operators beyond domestic oversight. Addressing this menace requires sustained coordination between the Centre and State governments. As the evidence suggests, a blanket ban is unlikely to work in the long run. Instead, policymakers should reconsider and test a regulated framework within a controlled environment.

This would enable policymakers to better understand and address the challenges posed by offshore operators, while also generating tax revenue from a regulated ecosystem. These revenues could then be reinvested in strengthening offshore monitoring and enforcement mechanisms, as well as funding player-awareness campaigns – an approach adopted successfully in several western countries.

22M. Regulation, not bans, can protect online gamers

प्रतिबंध नहीं, बल्कि विनियमन ऑनलाइन गेम खेलने वालों की सुरक्षा कर सकता है

- The **Promotion and Regulation of Online Gaming Act, 2025** was passed with the objective to "protect individuals, especially youth and vulnerable populations, from the adverse social, economic, psychological and privacy-related impacts" of online games involving money. **ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन अधिनियम, 2025** को इस उद्देश्य से पारित किया गया था कि "व्यक्तियों, विशेषकर युवाओं और संवेदनशील वर्गों को धन-संबंधित ऑनलाइन खेलों के प्रतिकूल सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक और गोपनीयता संबंधी प्रभावों से सुरक्षित रखा जा सके।"
- As growing evidence of their impact emerges, it is becoming increasingly clear that the Act is proving counterproductive. जैसे-जैसे इनके प्रभावों से संबंधित प्रमाण सामने आ रहे हैं, यह अधिक स्पष्ट होता जा रहा है कि यह अधिनियम प्रतिकूल परिणाम उत्पन्न कर रहा है।
- Early studies suggest that the use of offshore online betting and gambling platforms has risen since the ban.



प्रारंभिक अध्ययनों से संकेत मिलता है कि प्रतिबंध के बाद ऑफशोर ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ प्लेटफॉर्मों का उपयोग बढ़ गया है।

- Following the implementation of the **PROG Act in October 2025**, users quickly shifted from regulated domestic websites to illegal offshore platforms.
अक्टूबर 2025 में प्रोग अधिनियम लागू होने के बाद उपयोगकर्ता शीघ्र ही विनियमित घरेलू वेबसाइटों से अवैध ऑफशोर प्लेटफॉर्मों की ओर स्थानांतरित हो गए।

Rise in offshore platform use ऑफशोर प्लेटफॉर्मों के उपयोग में वृद्धि

- An even more worrying consequence is that these platforms not only circumvent domestic laws but may also become channels for money laundering and terror financing.
इसका और भी अधिक चिंताजनक परिणाम यह है कि ये प्लेटफॉर्म न केवल घरेलू कानूनों को दरकिनार करते हैं, बल्कि धन शोधन और आतंक वित्तपोषण के माध्यम भी बन सकते हैं।
- Several reports and surveys conducted after the ban suggest that offshore platform usage has risen sharply.
प्रतिबंध के बाद किए गए अनेक प्रतिवेदनों और सर्वेक्षणों से संकेत मिलता है कि ऑफशोर प्लेटफॉर्मों का उपयोग तीव्र गति से बढ़ा है।
- A study by **CUTS International** found a significant increase in offshore participation after the implementation of the PROG Act — from 68.3% to 82% in Delhi NCR, 67.8% to 83% in Tamil Nadu, and 66.7% to 91.7% in Maharashtra.
कट्स इंटरनेशनल के एक अध्ययन में पाया गया कि प्रोग अधिनियम लागू होने के बाद ऑफशोर भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई — दिल्ली एनसीआर में 68.3% से 82%, तमिलनाडु में 67.8% से 83%, तथा महाराष्ट्र में 66.7% से 91.7% तक।
- In Tamil Nadu, 67.8% of users reported using offshore platforms before the ban, often alongside domestic real-money gaming platforms.
तमिलनाडु में 67.8% उपयोगकर्ताओं ने बताया कि वे प्रतिबंध से पहले ऑफशोर प्लेटफॉर्मों का उपयोग करते थे, प्रायः घरेलू वास्तविक धन वाले गेमिंग प्लेटफॉर्मों के साथ।
- After the ban, this rose to 83%, involving the use of offshore platforms, marking an increase of 15.2 percentage points.
प्रतिबंध के बाद यह आँकड़ा बढ़कर 83% हो गया, जो ऑफशोर प्लेटफॉर्मों के उपयोग में 15.2 प्रतिशत अंकों की वृद्धि को दर्शाता है।
- This increase reflects a net behavioural shift of 15.2% toward offshore platforms, driven by a larger number of respondents starting offshore use after implementation of the PROG Act than those discontinuing it.
यह वृद्धि ऑफशोर प्लेटफॉर्मों की ओर 15.2% के शुद्ध व्यवहारिक परिवर्तन को दर्शाती है, जिसका कारण यह है कि प्रोग अधिनियम लागू होने के बाद ऑफशोर उपयोग शुरू करने वाले उत्तरदाताओं की संख्या इसे छोड़ने वालों से अधिक थी।
- This is not a new phenomenon.
यह कोई नई घटना नहीं है।
- Across industries, paternalistic bans rarely change consumer behaviour; they merely push users toward underground and more volatile channels.
विभिन्न उद्योगों में संरक्षणवादी प्रतिबंध शायद ही कभी उपभोक्ता व्यवहार को बदल पाते हैं; वे केवल उपयोगकर्ताओं को भूमिगत और अधिक अस्थिर माध्यमों की ओर धकेल देते हैं।
- Products which are not physical in nature face an even deeper challenge, as users can quickly shift through VPNs and private links, making effective regulation and consumer protection far more difficult.
जो उत्पाद भौतिक स्वरूप में नहीं होते, वे और भी बड़ी चुनौती का सामना करते हैं, क्योंकि उपयोगकर्ता वीपीएन



और निजी लिंक के माध्यम से शीघ्रता से स्थानांतरित हो सकते हैं, जिससे प्रभावी विनियमन और उपभोक्ता संरक्षण अत्यंत कठिन हो जाता है।

A case for strong regulation सशक्त विनियमन के पक्ष में तर्क

- In the recently concluded **Budget parliamentary session**, the **Ministry of Electronics and Information Technology** reported to the **Lok Sabha** that the **Centre had blocked 8,376 URLs to combat the financial irregularities and cybercrime havoc being caused by illegal offshore betting networks**.
हाल ही में सम्पन्न हुए **बजट संसदीय सत्र** में **इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय** ने **लोकसभा** को बताया कि केंद्र सरकार ने अवैध ऑफशोर सट्टेबाजी नेटवर्कों द्वारा उत्पन्न वित्तीय अनियमितताओं और साइबर अपराधों से निपटने के लिए **8,376 यूआरएल** अवरुद्ध किए हैं।
- Despite this, media reports continue to allude to suicides linked to illegal online betting traps even after the ban.
इसके बावजूद, मीडिया रिपोर्टों में प्रतिबंध के बाद भी अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी के जाल से जुड़ी आत्महत्याओं का उल्लेख लगातार किया जा रहा है।
- It is therefore crucial to recognise the scale of the problem and reconsider whether strong regulation may be more effective than an outright ban.
इसलिए यह आवश्यक है कि समस्या की गंभीरता को समझा जाए और इस पर पुनर्विचार किया जाए कि क्या पूर्ण प्रतिबंध की तुलना में सशक्त विनियमन अधिक प्रभावी हो सकता है।
- Illegal operators use technologically advanced evasion tactics, including **virtual private networks (VPN)**, **proxy servers** and **encrypted platforms** such as **WhatsApp** and **Telegram**, to ensure seamless access and transactions.
अवैध संचालक निर्बाध पहुँच और लेन-देन सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी रूप से उन्नत बचाव उपायों का उपयोग करते हैं, जिनमें **वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन)**, प्रॉक्सी सर्वर तथा **व्हाट्सऐप** और **टेलीग्राम** जैसे एन्क्रिप्टेड प्लेटफॉर्म शामिल हैं।
- **By the time authorities block one domain, users are often shifted to mirror sites with little disruption**.
जब तक प्राधिकरण किसी एक डोमेन को अवरुद्ध करते हैं, तब तक उपयोगकर्ता अक्सर बिना अधिक बाधा के मिरर साइटों पर स्थानांतरित हो चुके होते हैं।
- **The widespread use of VPNs also masks user locations, weakening geographic restrictions**.
वीपीएन का व्यापक उपयोग उपयोगकर्ताओं के स्थान को भी छिपा देता है, जिससे भौगोलिक प्रतिबंध कमजोर पड़ जाते हैं।
- **When users shift to offshore platforms, domestic authorities face significant limitations in ensuring consumer protection and grievance redress**.
जब उपयोगकर्ता ऑफशोर प्लेटफॉर्मों की ओर स्थानांतरित होते हैं, तब घरेलू प्राधिकरणों को उपभोक्ता संरक्षण और शिकायत निवारण सुनिश्चित करने में गंभीर सीमाओं का सामना करना पड़ता है।
- The easy accessibility of offshore online gambling platforms to Indian users is therefore a serious public concern.
इसलिए भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए ऑफशोर ऑनलाइन जुआ प्लेटफॉर्मों की आसान उपलब्धता एक गंभीर सार्वजनिक चिंता का विषय है।
- A recent inter-State online gambling and fraud racket that came to light in my constituency in **Tamil Nadu — Sivaganga** — in **February this year** involved a fraudulent “**Old Coin Purchase Task**” promoted on **Telegram**, in which the accused lured victims into investing money in fake old-coin bidding schemes by promising high returns.
मेरे निर्वाचन क्षेत्र **तमिलनाडु के शिवगंगा** में **इस वर्ष फरवरी** में सामने आए एक अंतर-राज्यीय ऑनलाइन जुआ और धोखाधड़ी गिरोह में **टेलीग्राम** पर प्रचारित एक धोखाधड़ीपूर्ण “**ओल्ड कॉइन परचेज टास्क**” शामिल था,



जिसमें आरोपियों ने अधिक लाभ का लालच देकर लोगों को नकली पुराने सिक्कों की बोली योजनाओं में निवेश करने के लिए फँसाया।

- They also procured “mule accounts” by persuading villagers in **Sivaganga, Paramakudi and Kalayarkovil** to open bank accounts in exchange for small payments, which were then used to divert the proceeds of the crime.

उन्होंने **शिवगंगा, परमकुडी और कलैयारकोविल** के ग्रामीणों को छोटी राशि के बदले बैंक खाते खुलवाने के लिए राजी कर “म्यूल अकाउंट्स” भी प्राप्त किए, जिनका उपयोग बाद में अपराध से अर्जित धन को स्थानांतरित करने में किया गया।

Examples from overseas

विदेशों से उदाहरण

- Looking at other jurisdictions offers useful perspectives on responding to the rise of offshore platforms.

अन्य देशों की व्यवस्थाओं को देखने से ऑफशोर प्लेटफॉर्मों के बढ़ते प्रभाव से निपटने के लिए उपयोगी दृष्टिकोण प्राप्त होते हैं।

- The **United Arab Emirates**, despite its long-standing prohibition, moved in **2023** to establish a tightly controlled federal licensing framework with strict compliance requirements, deposit limits and harm-prevention safeguards, partly to address the risks posed by unregulated offshore activity.

संयुक्त अरब अमीरात ने, लंबे समय से प्रतिबंध होने के बावजूद, **2023** में कड़े अनुपालन नियमों, जमा सीमा और हानि-निवारण सुरक्षा उपायों के साथ एक सख्त संघीय लाइसेंसिंग ढाँचा स्थापित किया, जिसका उद्देश्य अनियमित ऑफशोर गतिविधियों से उत्पन्न जोखिमों का समाधान करना था।

- **Sri Lanka** is now moving in a similar direction, with a centralised **Gambling Regulatory Authority** expected to become operational by **June 2026** to consolidate oversight and bring offshore online activity within a clear domestic framework.

श्रीलंका भी अब इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है, जहाँ एक केंद्रीकृत **गैम्बलिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी** के **जून 2026** तक कार्यरत होने की संभावना है, ताकि निगरानी को सुदृढ़ किया जा सके और ऑफशोर ऑनलाइन गतिविधियों को स्पष्ट घरेलू ढाँचे के अंतर्गत लाया जा सके।

- The emerging lesson is that the real policy choice is rarely between permitting and banning. उभरता हुआ निष्कर्ष यह है कि वास्तविक नीतिगत विकल्प प्रायः अनुमति और प्रतिबंध के बीच नहीं होता।

- It is between creating a regulated domestic framework with accountability and consumer safeguards, or allowing the space to be dominated by offshore operators beyond domestic oversight.

वास्तविक विकल्प उत्तरदायित्व और उपभोक्ता सुरक्षा वाले विनियमित घरेलू ढाँचे के निर्माण तथा घरेलू निगरानी से परे ऑफशोर संचालकों को इस क्षेत्र पर प्रभुत्व स्थापित करने देने के बीच होता है।

- Addressing this menace requires sustained coordination between the Centre and State governments.

इस समस्या से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच निरंतर समन्वय आवश्यक है।

- As the evidence suggests, a blanket ban is unlikely to work in the long run.

जैसा कि प्रमाण संकेत देते हैं, दीर्घकाल में पूर्ण प्रतिबंध प्रभावी होने की संभावना कम है।

- Instead, policymakers should reconsider and test a regulated framework within a controlled environment.

इसके बजाय नीति-निर्माताओं को नियंत्रित वातावरण में एक विनियमित ढाँचे पर पुनर्विचार कर उसका परीक्षण करना चाहिए।

- This would enable policymakers to better understand and address the challenges posed by offshore operators, while also generating tax revenue from a regulated ecosystem.

इससे नीति-निर्माताओं को ऑफशोर संचालकों द्वारा उत्पन्न चुनौतियों को बेहतर ढंग से समझने और उनका समाधान करने में सहायता मिलेगी, साथ ही विनियमित व्यवस्था से कर राजस्व भी प्राप्त होगा।



TELEGRAM CHANNEL: <https://t.me/patrioticIAS>
YOUTUBE CHANNEL: <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>
CONTACT: 9971932488



- These revenues could then be reinvested in strengthening offshore monitoring and enforcement mechanisms, as well as funding player-awareness campaigns — an approach adopted successfully in several western countries.
इन राजस्वों का पुनर्निवेश ऑफशोर निगरानी और प्रवर्तन तंत्र को मजबूत करने तथा खिलाड़ी जागरूकता अभियानों के वित्तपोषण में किया जा सकता है — यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसे कई पश्चिमी देशों में सफलतापूर्वक अपनाया गया है।

PATRIOTIC IAS